



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062023-246647  
CG-DL-E-17062023-246647

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2552]  
No. 2552]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2023

का.आ. 2665(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3528(अ), तारीख 27 जुलाई, 2022 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 जुलाई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, हरियाणा आर्बिटल रेल कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने प्रयोजन के लिए घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "हिंदुस्तान टाइम्स" तारीख 3 अगस्त 2022 और "दैनिक जागरण" तारीख 3 अगस्त 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा सभी आक्षेपों का नियमानुसार निस्तारण किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची					
हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, हरियाणा आर्बिटल रेल कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण					
जिले का नाम : गुरुग्राम			गुरुग्राम		
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :			फरुखनगर		
ग्राम का नाम :			बाबडा बाकीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	35// 11min	चाही	निजी	0.0076	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
2	35// 19 min	चाही	निजी	0.0152	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
3	35// 20min	चाही	निजी	0.1648	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
4	35// 21min	चाही	निजी	0.0683	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती

					चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
5	35// 22/1min	चाही	निजी	0.0708	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
6	35// 22/2min	चाही	निजी	0.0025	श्रीमती सरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग राजेन्द्र, बीर सिंह पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहब राम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/3 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
7	36// 2/1/1 min	चाही	निजी	0.0025	श्रीमती शरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड़ 1/27 भाग बीरसिंह, राजेन्द्र पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड़ हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग श्रीमती फूलवती बिधवा व विजय उपनाम बवल पुत्र व श्रीमती कृष्णा, नीलम पुत्रियां दलजीत पुत्र मुन्शी हर चार समभाग 1/15 भाग धर्मपाल पुत्र रणजीत पुत्र अमीलाल 1/15 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहबराम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग जगमाल सिंह, सुरजभान पुत्रान व श्रीमती भरपाई पुत्री मनभर पुत्री अमीलाल हर तीन समभाग 1/15 भाग श्रीमती शान्ति बिधवा व धर्मवीर पुत्र व श्रीमती शकुन्तला, दया पुत्रियां केहर सिंह पुत्र अमीलाल हर चार समभाग 1/30 भाग श्रीमती सन्तोष बिधवा व होतीलाल पुत्र व लिलय, सुमनलता पुत्रियां प्रकाश पुत्र केहर सिंह हर चार समभाग 1/150 भाग श्रीमती मुकेश देवी बिधवा व विशाल पुत्र व शीतल पुत्री अशोक कुमार पुत्र प्रकाश हर तीन समभाग 1/600 भाग श्रीमती कमला बिधवा व कुलदीप, यशपाल पुत्रान व श्रीमती

					बिमला, सरोज, मुन्नी पुत्रियां राजेन्द्र पुत्र केहर सिंह हर छः समभाग 1/120 भाग कर्मबीर पुत्र व पिकी पुत्री व श्रीमती कमलेश बिधवा सज्जन सिंह पुत्र केहर हर तीन समभाग 1/120 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग सतबीर, धर्मबीर, जसवन्त, वेदप्रकाश पुत्रान श्रीमती कमला देवी, सुन्दरी देवी पुत्रियां मोहरकौर पुत्री अमीलाल हर छः समभाग 1/15 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/120 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
8	36// 2/1/2 min	चाही	निजी	0.0076	श्रीमती शरबती पत्नी प्यारेलाल पुत्र मोल्हड 1/27 भाग बीरसिंह, राजेन्द्र पुत्रान प्यारे लाल पुत्र मोल्हड हर दो समभाग 2/27 भाग फूलवती माता सुरजीत पुत्र रोशन 1/9 भाग दिनेश पुत्र अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/36 भाग श्रीमती फूलवती बिधवा व विजय उपनाम बवल पुत्र व श्रीमती कृष्णा, नीलम पुत्रियां दलजीत पुत्र मुन्शी हर चार समभाग 1/15 भाग धर्मपाल पुत्र रणजीत पुत्र अमीलाल 1/15 भाग महीपाल, मुनेश कुमार पुत्रान ईश्वर पुत्र साहबराम हर दो समभाग 7/48 भाग श्रीमती बेदोरानी पुत्री व श्रीमती रोशनी देवी बिधवा ईश्वर सिंह पुत्र साहबराम हर दो समभाग 1/48 भाग जगमाल सिंह, सुरजमान पुत्रान व श्रीमती भरपाई पुत्री मनभर पुत्री अमीलाल हर तीन समभाग 1/15 भाग श्रीमती शान्ति बिधवा व धर्मबीर पुत्र व श्रीमती शकुन्तला, दया पुत्रियां केहर सिंह पुत्र अमीलाल हर चार समभाग 1/30 भाग श्रीमती सन्तोष बिधवा व होतीलाल पुत्र व लिलय, सुमनलता पुत्रियां प्रकाश पुत्र केहर सिंह हर चार समभाग 1/150 भाग श्रीमती मुकेश देवी बिधवा व विशाल पुत्र व शीतल पुत्री अशोक कुमार पुत्र प्रकाश हर तीन समभाग 1/600 भाग श्रीमती कमला बिधवा व कुलदीप, यशपाल पुत्रान व श्रीमती बिमला, सरोज, मुन्नी पुत्रियां राजेन्द्र पुत्र केहर सिंह हर छः समभाग 1/120 भाग कर्मबीर पुत्र व पिकी पुत्री व श्रीमती कमलेश बिधवा सज्जन सिंह पुत्र केहर हर तीन समभाग 1/120 भाग श्रीमती चान्दकौर माता व श्रीमती बाला देवी बिधवा व राजपाल, विजयपाल, जयवीर पुत्रान धर्म सिंह पुत्र साहबराम हर पाँच समभाग 1/6 भाग सतबीर, धर्मबीर, जसवन्त, वेदप्रकाश पुत्रान श्रीमती कमला देवी, सुन्दरी देवी पुत्रियां मोहरकौर पुत्री अमीलाल हर छः समभाग 1/15 भाग श्रीमती सोना देवी बिधवा अजीत सिंह पुत्र हंसराम 1/12 भाग वासीदेह रविन्द्र पुत्र प्रधान सिंह पुत्र केहर सिंह 1/120 भाग वासी बासलाम्बी वासी तहसील फरुखनगर
9	93/3 min	गैर मुमकिन	निजी व सरकारी	0.0126	सिविल पंचायत व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
<b>जोड़</b>				<b>0.3519</b>	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :				<b>फरुखनगर</b>	
ग्राम का नाम :				<b>झुण्डसराय आबाद</b>	
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	14// 24/1 min	चाही	सरकारी	0.1897	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2013
2	15// 3 min	चाही	सरकारी	0.1189	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2013
3	15// 4/1 min	चाही	सरकारी	0.2125	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2013
4	15// 7/2 min	चाही	सरकारी	0.3159	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2013
5	15// 8 min	चाही	सरकारी	0.0152	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2014
6	15// 9 min	चाही	सरकारी	0.0531	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अबाई नं 30 दिनांक 08.02.2015

7	15// 14/1 min	चाही	सरकारी	0.3490	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अर्बाई नं 30 दिनांक 08.02.2016
8	15// 15/1 min	चाही	सरकारी	0.0304	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अर्बाई नं 30 दिनांक 08.02.2017
9	15// 16/2 min	चाही	सरकारी	0.1622	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अर्बाई नं 30 दिनांक 08.02.2018
10	15// 17 min	चाही	सरकारी	0.2124	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अर्बाई नं 30 दिनांक 08.02.2019
11	26 Min	गैर मुमकिन सडक	निजी	0.0581	ग्राम पंचायत देह
जोड़				1.7174	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :				फरुखनगर	
ग्राम का नाम :				पातली हाजिपुर	
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	57// 5/1/2 min	चाही	निजी	0.0252	कृष्ण, संजीव पुत्रान रामचन्द्र पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 4/9 भाग वासीदेह
2	57// 6/1 min	चाही	निजी	0.0304	कृष्ण, संजीव पुत्रान रामचन्द्र पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 4/9 भाग वासीदेह
3	57// 15/1/2 min	चाही	निजी	0.0051	सुभाष, अजीत पुत्रान भीखू पुत्र सुलतान हर दो समभाग 1/2 भाग गौरव धनखड पुत्र व श्रीमती गीता पुत्री व कमलेश धनखड बिधवा जयप्रकाश पुत्र भीखू हर तीन समभाग 1/4 भाग सुधीर धनखड, राहुल धनखड पुत्रान बलजीत सिंह पुत्र हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
4	57// 15/2/2 min	चाही	निजी	0.0379	सुभाष, अजीत पुत्रान भीखू पुत्र सुलतान हर दो समभाग 1/2 भाग गौरव धनखड पुत्र व श्रीमती गीता पुत्री व कमलेश धनखड बिधवा जयप्रकाश पुत्र भीखू हर तीन समभाग 1/4 भाग सुधीर धनखड, राहुल धनखड पुत्रान बलजीत सिंह पुत्र हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
5	57// 16/1 min	चाही	निजी	0.0354	बाबूलाल पुत्र रुघनाथ पुत्र रामजीलाल 88/211 भाग लालचन्द, बालकिशन, दवेन्द्र कुमार, हरीश कुमार पुत्रान कलीराम पुत्र रुघनाथ हर चार समभाग 88/211 भाग वेदप्रकाश पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 23/211 भाग प्रवीन पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 12/211 भाग वासीदेह
6	57// 25/2/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0051	जगदीशचन्द, परसराम, ब्रज किशोर पुत्रान मनोहर लाल उर्फ कालू पुत्र शिवदत्त हर तीन समभाग 17/120 भाग कलीराम, श्रीकिशन, बाबूलाल पुत्रान रुघनाथ पुत्र हर तीन समभाग 223/900 भाग लेखराम पुत्र व कपूरी देवी पुत्री रुघनाथ पुत्र हर दो समभाग 17/900 भाग ईशवर सिंह पुत्र हरध्यान पुत्री प्रभु 1/20 भाग रामकवार पुत्र श्रीराम उर्फ भैसिया पुत्र प्रभु दयाल 281/900 भाग श्रीमती सन्तोष देवी बिधवा व सतीश कुमार, हितेश कुमार पुत्रान यादराम पुत्र मनोहर लाल हर तीन समभाग 17/360 भाग रमेश चन्द, नरेश, पुर्णमल, टेकचन्द, सुभाष, हिरालाल पुत्रान रामकवार पुत्र श्रीराम उर्फ भैसिया हर छः समभाग 41/225 भाग वासीदेह
7	58// 4/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0607	ग्राम पंचायत
8	58// 7/1/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0152	ग्राम पंचायत
9	58// 7/2/1 min	चाही	निजी	0.0252	मैसर्ज पी. ऐ. सी. ऐल. इश्योरेन्स सर्विस लि. A-4/445 पश्चिम विहार नई दिल्ली 1/3 भाग मैसर्ज डी. पी. ऐस. ई. फाईनान्स लि. दीपक के. साहनी पुत्र आर. सी. साहनी 2/3 भाग वासीदेह
10	58// 14/2 min	चाही	निजी	0.0278	मैसर्ज पी. ऐ. सी. ऐल. इश्योरेन्स सर्विस लि. A-4/445 पश्चिम विहार नई दिल्ली 1/3 भाग मैसर्ज डी. पी. ऐस. ई. फाईनान्स लि. दीपक के. साहनी पुत्र आर. सी. साहनी 2/3 भाग वासीदेह
11	58// 15 min	चाही	निजी	0.0177	मैसर्ज पी. ऐ. सी. ऐल. इश्योरेन्स सर्विस लि. A-4/445 पश्चिम विहार नई दिल्ली 1/3 भाग मैसर्ज डी. पी. ऐस. ई. फाईनान्स लि. दीपक के. साहनी पुत्र आर. सी. साहनी 2/3 भाग वासीदेह
12	58// 16/1 min	चाही	निजी	0.0405	मैसर्ज पी. ऐ. सी. ऐल. इश्योरेन्स सर्विस लि. A-4/445 पश्चिम विहार

					नई दिल्ली 1/3 भाग मैसर्ज डी. पी. एस. ई. फाईनान्स लि. दीपक के. साहनी पुत्र आर. सी. साहनी 2/3 भाग वासीदेह
13	58// 25/1/2 min	चाही	निजी	0.0405	मैसर्ज पी. ऐ. सी. ऐल. इश्योरेन्स सर्विस लि. A-4/445 पश्चिम विहार नई दिल्ली पुत्र मालिक कब्जा रामचन्द्र पुत्र शेर सिंह पुत्र गंगाराम वासीदेह
14	59// 3/2 min	चाही	निजी	0.0607	बलवान सिंह, श्रीकृष्ण, धर्मवीर, महावीर पुत्रान हुकमचन्द पुत्र सुरजन हर चार समभाग मालकान कब्जा जयनारायण पुत्र हरि सिंह पुत्र अमीलाल वासीदेह हकदार शामलात
15	59// 7 min	चाही	निजी	0.0125	मै. ऐ. जी. सिक्वोरिटिज प्रा. लि. बजरिये डी. के. शर्मा पुत्र ऐस. ऐन. शर्मा पुत्र 2/3 भाग राजबीर पुत्र व शीला, प्रेमवती पुत्रियां भलिया पत्नी जागेराम हर तीन समभाग 1/5 भाग विनोद कुमार, विजय कुमार, विक्रम सिंह, विवेकानन्द पुत्रान सुबीरा पुत्री भलिया हर चार समभाग 1/15 भाग राकेश कुमार, देविन्द्र कुमार पुत्रान दयानन्द पुत्र शिबा हर दो समभाग 1/15 भाग वासीदेह
16	59// 8/1 min	चाही	निजी	0.0278	मै. ऐ. जी. सिक्वोरिटिज प्रा. लि. बजरिये डी. के. शर्मा पुत्र ऐस. ऐन. शर्मा पुत्र वासीदेह
17	59// 14/2 min	चाही	निजी	0.0531	मै. ऐ. जी. सिक्वोरिटिज प्रा. लि. बजरिये डी. के. शर्मा पुत्र ऐस. ऐन. शर्मा पुत्र 2/3 भाग राजबीर पुत्र व शीला, प्रेमवती पुत्रियां भलिया पत्नी जागेराम हर तीन समभाग 1/5 भाग विनोद कुमार, विजय कुमार, विक्रम सिंह, विवेकानन्द पुत्रान सुबीरा पुत्री भलिया हर चार समभाग 1/15 भाग राकेश कुमार, देविन्द्र कुमार पुत्रान दयानन्द पुत्र शिबा हर दो समभाग 1/15 भाग वासीदेह
18	59// 17/1 min	बंजर कदीम / गैर मुमकिन	निजी	0.0556	ग्राम पंचायत
19	59// 24/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0607	ग्राम पंचायत
20	60// 2/2 min	चाही	निजी	0.0607	कमल सिंह, साहब सिंह, रोशन सिंह, रामनिवास, श्रीनिवास, श्रीभगवान, कृष्ण कुमार पुत्रान व श्रीमती कमलेश देवी, सुरेश देवी, सुदेश देवी, पुत्रियां व भरतो देवी बिधवा श्री सुले चन्द पुत्र चरण सिंह हर गयारह समभाग मालकान कब्जा राम मेहर, जगदीश, गुगन सिंह, औमप्रकाश, अजीत पुत्रान परसराम उर्फ परसा पुत्र गोपाल हर पाँच समभाग वासीदेह हकदार शामलात
21	60// 3/1 min	गैर मुमकिन	सरकारी	0.0101	कमल सिंह, साहब सिंह, रोशन सिंह, रामनिवास, श्रीनिवास, श्रीभगवान, कृष्ण कुमार पुत्रान व श्रीमती कमलेश देवी, सुरेश देवी, सुदेश देवी, पुत्रियां व भरतो देवी बिधवा श्री सुले चन्द पुत्र चरण सिंह हर गयारह समभाग मालकान कब्जा राम मेहर, जगदीश, गुगन सिंह, औमप्रकाश, अजीत पुत्रान परसराम उर्फ परसा पुत्र गोपाल हर पाँच समभाग वासीदेह हकदार शामलात
22	60// 4/2 min	गैर मुमकिन जौहर	निजी	0.0076	पंचायत देह
23	60// 8/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0076	श्रीमती गायत्री अरोडा पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुखदेव 2/3 भाग लक्ष्य अरोडा, दक्ष अरोडा पुत्रान सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुखदेव हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह
24	60// 8/2/2 min	चाही / गैर मुमकिन	सरकारी	0.0177	प्रांतीय सरकार
25	60// 8/3 min	चाही	निजी	0.0177	कमल सिंह, साहब सिंह, रोशन सिंह, रामनिवास, श्रीनिवास, श्रीभगवान, कृष्ण कुमार पुत्रान व श्रीमती कमलेश देवी, सुरेश देवी, सुदेश देवी, पुत्रियां व भरतो देवी बिधवा श्री सुले चन्द पुत्र चरण सिंह हर गयारह समभाग मालकान कब्जा राम मेहर, जगदीश, गुगन सिंह, औमप्रकाश, अजीत पुत्रान परसराम उर्फ परसा पुत्र गोपाल हर पाँच समभाग वासीदेह हकदार शामलात
26	60// 9/2/1 min	चाही	निजी	0.0177	सुलेचन्द पुत्र चरण सिंह पुत्र राममेहर मालिक कब्जा वासी महीपाल पुर वासी दिल्ली राम मेहर, जगदीश, गुगन सिंह, औमप्रकाश, अजीत पुत्रान परसराम उर्फ परसा पुत्र गोपाल हर पाँच समभाग वासीदेह हकदार शामलात
27	60// 13/1/1 min	बंजर	निजी	0.0809	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम

		कदीम / गैर मुमकिन	/ सरकारी		लिमिटेड व प्रांतीय सरकार व बलवान सिंह, श्रीकृष्ण, धर्मबीर, महावीर पुत्रान हुकम चन्द पुत्र सुरजन सिंह हर चार समभाग वासीदेह
28	60// 18/1 min	चाही	निजी	0.0556	बलवान सिंह, श्रीकृष्ण, महावीर, धर्मबीर पुत्रान हुकमचन्द पुत्र हर चार समभाग वासी खाण्डसा
29	60// 23/2 min	चाही	निजी	0.0607	बलवान सिंह, श्रीकृष्ण, धर्मबीर, महावीर पुत्रान हुकमचन्द पुत्र सुरजन हर चार समभाग मालकान कब्जा जयनारायण पुत्र हरि सिंह पुत्र अमीलाल वासीदेह हकदार शामलात
30	74// 24/2 min	चाही	निजी	0.0101	देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा औमप्रकाश पुत्र रामसकप पुत्र चन्दनलाल 1/4 भाग मालिक कब्जा वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दन लाल हर दो समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा चन्दगी दत्तक पुत्र खुशहाली पुत्र वासीदेह हकदार शामलात
31	74// 25 min	चाही	निजी	0.0177	देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा औमप्रकाश पुत्र रामसकप पुत्र चन्दनलाल 1/4 भाग मालिक कब्जा वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दन लाल हर दो समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा चन्दगी दत्तक पुत्र खुशहाली पुत्र वासीदेह हकदार शामलात
32	79// 5/2 min	चाही	निजी	0.0126	राय सिंह, अजीत सिंह, बने सिंह पुत्रान छोटुराम पुत्र बुधराम हर तीन समभाग 1/2 भाग अतर सिंह, देविन्द्र सिंह, अजय सिंह पुत्रान महावीर पुत्र बुधराम हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह
33	80// 5/2 min	चाही	निजी	0.0708	औमप्रकाश पुत्र रामसरूप पुत्र चन्दनलाल 1/4 भाग देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
34	80// 6/1 min	चाही	निजी	0.0708	औमप्रकाश पुत्र रामसरूप पुत्र चन्दनलाल 1/4 भाग देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
35	80// 15/2 min	चाही	निजी	0.0708	औमप्रकाश पुत्र रामसरूप पुत्र चन्दनलाल 1/4 भाग देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
36	80// 16/1/1 min	चाही	निजी	0.0506	औम प्रकाश पुत्र राम सरूप पुत्र चन्दन लाल 1/4 भाग देविन्द्र कुमार, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रान शेरसिंह पुत्र चन्दनलाल हर दो समभाग 1/4 भाग वेदप्रकाश, विजयकुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान दीपचन्द पुत्र चन्दनलाल हर चार समभाग 1/4 भाग सतीश कुमार शर्मा, योगेश शर्मा पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दन लाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह
37	80// 16/2/1 min	चाही	निजी	0.0202	आजाद सिंह, जगदीश सिंह पुत्रान सरूप सिंह पुत्र नत्थू हर दो समभाग 1/2 भाग राजपाल पुत्र रिसाल सिंह पुत्र नत्थू 1/4 भाग प्रवीण पुत्र राजेन्द्र पुत्र सरूप 1/4 भाग वासीदेह
38	80// 25/2 min	चाही	निजी	0.0733	बिजेन्द्र पुत्र रामसिंह पुत्र रामपत वासीदेह
39	81// 21/1/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	पंचायत देह
40	82// 1/1/1 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0126	पंचायत देह
41	82// 1/2 min	चाही	निजी	0.0405	सोमदत्त, प्रदीप कुमार, सन्दीप कुमार पुत्रान व श्रीमती पूनम पुत्री व श्रीमती ईशवन्ती विधवा रामेश्वर चन्द्र पुत्र हर पाँच समभाग 1/5 भाग खेमराम, धर्मबीर, अजयपाल पुत्रान रामधन पुत्र जीतराम हर तीन समभाग 3/5 भाग गोरव कुमार पुत्र श्रीपाल पुत्र रामधन 1/5 भाग वासीदेह

42	82// 10/1/1 min	चाही	निजी	0.0607	सोमदत्त, प्रदीप कुमार, सन्दीप कुमार पुत्रान व श्रीमती पूनम पुत्री व श्रीमती ईशवन्ती बिधवा रामेश्वर चन्द्र पुत्र हर पाँच समभाग 1/5 भाग खेमराम, धर्मवीर, अजयपाल पुत्रान रामधन पुत्र जीतराम हर तीन समभाग 3/5 भाग गोरव कुमार पुत्र श्रीपाल पुत्र रामधन 1/5 भाग वासीदेह
43	82// 11/2/2 min	चाही	निजी	0.0581	सोमदत्त, प्रदीप कुमार, सन्दीप कुमार पुत्रान व श्रीमती पूनम पुत्री व श्रीमती ईशवन्ती बिधवा रामेश्वर चन्द्र पुत्र हर पाँच समभाग 1/5 भाग खेमराम, धर्मवीर, अजयपाल पुत्रान रामधन पुत्र जीतराम हर तीन समभाग 3/5 भाग गोरव कुमार पुत्र श्रीपाल पुत्र रामधन 1/5 भाग वासीदेह
44	82// 11/3/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025	पंचायत देह
45	82// 20/1 min	चाही	निजी	0.0607	श्रीमती पुनम पत्नी कृष्ण कुमार पुत्र सतपाल मालिक कब्जा वासी धानावास धर्मपाल, राजपाल, सूरजभान पुत्रान खुशीराम पुत्र किशनदत्त हर तीन समभाग वासीदेह हकदार शामलात
46	82// 21/2 min	चाही	निजी	0.0758	राज पाल, सूरजभान पुत्रान खुशीराम पुत्र किशनदत्त हर दो समभाग 2/3 भाग रविप्रकाश, सुनील कुमार पुत्रान धर्मपाल पुत्र खुशीराम हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह
47	83// 1/2 min	चाही	निजी	0.0506	राज पाल, सूरजभान पुत्रान खुशीराम पुत्र किशनदत्त हर दो समभाग 2/3 भाग श्रीमती मीना कुमारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन 9/40 भाग रविप्रकाश, सुनील कुमार पुत्रान धर्मपाल पुत्र खुशीराम हर दो समभाग 13/120 भाग वासीदेह
48	83// 2 min	चाही	निजी	0.0304	राज पाल, सूरजभान पुत्रान खुशीराम पुत्र किशनदत्त हर दो समभाग 2/3 भाग श्रीमती मीना कुमारी पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन 37/225 भाग रविप्रकाश, सुनील कुमार पुत्रान धर्मपाल पुत्र खुशीराम हर दो समभाग 38/225 भाग वासीदेह
49	83// 9/1 min	चाही	निजी	0.0025	शिवजीत, नवजीत पुत्रान ईशवर सिंह पुत्र हर दो समभाग वासी नई दिल्ली
50	83// 9/3/1 min	चाही	निजी	0.0708	शिवजीत, नवजीत पुत्रान ईशवर सिंह पुत्र हर दो समभाग वासी नई दिल्ली
51	83// 10/1 min	चाही	निजी	0.0000	शिवजीत, नवजीत पुत्रान ईशवर सिंह पुत्र हर दो समभाग वासी नई दिल्ली
52	83// 12/2 min	चाही	निजी	0.0708	मूलचन्द, रामकरन, चन्द्ररूप पुत्रान मीर सिंह पुत्र नन्दलाल हर तीन समभाग 3/4 भाग मुकेश, परमजीत पुत्रान रामफल पुत्र मीर सिंह हर दो समभाग 1/4 भाग
53	83// 19/1 min	चाही	निजी	0.0708	धर्मपाल, सतपाल, जसपाल पुत्रान रामचन्द्र पुत्र नन्दलाल हर तीन समभाग वासीदेह
54	83// 22/2 min	चाही	निजी	0.0658	कमल सिंह, साहब सिंह, रोशन सिंह, रामनिवास, श्रीनिवास, श्रीभगवान, कृष्ण कुमार पुत्रान व श्रीमती कमलेश देवी, सुरेश देवी, सुदेश देवी, पुत्रियां व भरतो देवी बिधवा श्री सुले चन्द पुत्र चरण सिंह हर गयारह समभाग मालकान कब्जा राम मेहर, जगदीश, गुगन सिंह, औमप्रकाश, अजीत पुत्रान परसराम उर्फ परसा पुत्र गोपाल हर पाँच समभाग वासीदेह हकदार शामलात
55	95// 20 min	चाही	निजी	0.0354	बाबूलाल पुत्र रुघनाथ पुत्र रामजीलाल 88/211 भाग लालचन्द, बालकिशन, दवेन्द्र कुमार, हरीश कुमार पुत्रान कलीराम पुत्र रुघनाथ हर चार समभाग 88/211 भाग वेदप्रकाश पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 23/211 भाग प्रवीन पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 639/66887 भाग श्रीमती मालती शर्मा पत्नी प्रवीन कुमार पुत्र श्रीकिशन 15/317 भाग वासीदेह
56	95// 21/2 min	चाही	निजी	0.0784	बाबूलाल पुत्र रुघनाथ पुत्र रामजीलाल 88/211 भाग लालचन्द, बालकिशन, दवेन्द्र कुमार, हरीश कुमार पुत्रान कलीराम पुत्र रुघनाथ हर चार समभाग 88/211 भाग वेदप्रकाश पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 23/211 भाग प्रवीन पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 639/66887 भाग श्रीमती मालती शर्मा पत्नी प्रवीन कुमार पुत्र श्रीकिशन 15/317 भाग वासीदेह
57	116// 1/2 min	चाही	निजी	0.1112	बाबूलाल पुत्र रुघनाथ पुत्र रामजीलाल 88/211 भाग लालचन्द, बालकिशन, दवेन्द्र कुमार, हरीश कुमार पुत्रान कलीराम पुत्र रुघनाथ हर चार समभाग 88/211 भाग वेदप्रकाश पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 23/211 भाग प्रवीन पुत्र श्रीकिशन पुत्र रुघनाथ 12/211 भाग वासीदेह







तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :					फरुखनगर
ग्राम का नाम :					खेटावास
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	28// 3/2 min	चाही	निजी	0.0456	सरदानन्द, देशराज पुत्रान बृजलाल पुत्र बखतावर हर दो समभाग 1/2 भाग सुनिता पुत्री धर्मपाल पुत्र बृजलाल 1/8 भाग श्रीमती गीता बिधवा श्रीभगवान पुत्र सन्तराज 1/36 भाग जयभगवान पुत्र सन्तराज पुत्र बृजलाल 1/8 भाग कपिल, आशीष पुत्रान श्रीभगवान पुत्र सन्तराज हर दो समभाग 7/72 भाग रेखा यादव पुत्री धर्मपाल पुत्र ब्रजलाल 1/8 भाग वासीदेह
2	28// 8/1 min	चाही	निजी	0.0556	नाहारसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र रिछपाल वासीदेह
3	28// 13/2 min	चाही	निजी	0.0658	नाहारसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र रिछपाल वासीदेह
4	28// 17 min	चाही	निजी	0.0228	नाहारसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र रिछपाल वासीदेह
5	28// 18/1 min	चाही	निजी	0.0481	नाहारसिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रिछपाल 3/4 भाग श्रीमती कमलादेवी बिधवा रामसिंह पुत्र रिछपाल 1/8 भाग सुशीला, लक्ष्मी पुत्रियां व श्रीमती सावत्री बिधवा उमदे पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह
6	28// 24 min	चाही	निजी	0.0051	नाहारसिंह पुत्र राम सिंह पुत्र रिछपाल 3/4 भाग श्रीमती कमलादेवी बिधवा रामसिंह पुत्र रिछपाल 1/8 भाग सुशीला, लक्ष्मी पुत्रियां व श्रीमती सावत्री बिधवा उमदे पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह
7	24// 2/2/2 min	चाही	निजी	0.0202	चरन सिंह पुत्र व मीना पुत्री सुमेरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हर दो समभाग 1/4 भाग प्रेमजीतसिंह, अजीतसिंह, सतबीरसिंह पुत्रान सुमेरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह
8	24// 9/1 min	चाही	निजी	0.0278	चरन सिंह पुत्र व मीना पुत्री सुमेरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हर दो समभाग 1/4 भाग प्रेमजीतसिंह, अजीतसिंह, सतबीरसिंह पुत्रान सुमेरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह
9	24// 12/2/2 min	चाही	निजी	0.0202	सरदानन्द, देशराज पुत्रान बृजलाल पुत्र बखतावर हर दो समभाग 1/2 भाग सुनिता पुत्री धर्मपाल पुत्र बृजलाल 1/8 भाग श्रीमती गीता बिधवा श्रीभगवान पुत्र सन्तराज 1/36 भाग जयभगवान पुत्र सन्तराज पुत्र बृजलाल 1/8 भाग कपिल, आशीष पुत्रान श्रीभगवान पुत्र सन्तराज हर दो समभाग 7/72 भाग रेखा यादव पुत्री धर्मपाल पुत्र ब्रजलाल 1/8 भाग वासीदेह
10	24// 18 min	चाही / गैर मुमकिन	निजी	0.0177	सरदानन्द, देशराज पुत्रान बृजलाल पुत्र बखतावर हर दो समभाग 1/2 भाग सुनिता पुत्री धर्मपाल पुत्र बृजलाल 1/8 भाग श्रीमती गीता बिधवा श्रीभगवान पुत्र सन्तराज 1/36 भाग जयभगवान पुत्र सन्तराज पुत्र बृजलाल 1/8 भाग कपिल, आशीष पुत्रान श्रीभगवान पुत्र सन्तराज हर दो समभाग 7/72 भाग रेखा यादव पुत्री धर्मपाल पुत्र ब्रजलाल 1/8 भाग वासीदेह
11	24// 19/1/1 min	चाही	निजी	0.0227	सरदानन्द, देशराज पुत्रान बृजलाल पुत्र बखतावर हर दो समभाग 1/2 भाग सुनिता पुत्री धर्मपाल पुत्र बृजलाल 1/8 भाग श्रीमती गीता बिधवा श्रीभगवान पुत्र सन्तराज 1/36 भाग जयभगवान पुत्र सन्तराज पुत्र बृजलाल 1/8 भाग कपिल, आशीष पुत्रान श्रीभगवान पुत्र सन्तराज हर दो समभाग 7/72 भाग रेखा यादव पुत्री धर्मपाल पुत्र ब्रजलाल 1/8 भाग वासीदेह
12	24// 23/2 min	चाही	निजी	0.0405	सरदानन्द, देशराज पुत्रान बृजलाल पुत्र बखतावर हर दो समभाग 1/2 भाग सुनिता पुत्री धर्मपाल पुत्र बृजलाल 1/8 भाग श्रीमती गीता बिधवा श्रीभगवान पुत्र सन्तराज 1/36 भाग जयभगवान पुत्र सन्तराज पुत्र बृजलाल 1/8 भाग कपिल, आशीष पुत्रान श्रीभगवान पुत्र सन्तराज हर दो समभाग 7/72 भाग रेखा यादव पुत्री धर्मपाल पुत्र ब्रजलाल 1/8 भाग वासीदेह
13	73/3 min	गैर मुमकिन	सरकारी	0.0152	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड व हरियाणा सरकार
जोड़				<b>0.4073</b>	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :					फरुखनगर
ग्राम का नाम :					सैदपुर मौहम्मदपुर
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	34// 25/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0253	पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड





					समभाग 3/5 भाग श्रीमती बर्फी देवी बिधवा व सुभाष चन्द, श्रीभगवान, गोविन्द पुत्रान धनीराम पुत्र तुलाराम हर चार समभाग 1/5 भाग जयभगवान पुत्र कवरलाल पुत्र तुलाराम 4/25 भाग जयभगवान पुत्र कवरलाल पुत्र तुलाराम 1/25 भाग वासीदेह
27	47// 18/1/1 min	चाही	निजी	0.0025	रामकुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम वासीदेह
28	47// 18/2 min	चाही	निजी	0.0025	महेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम वासी सेदपुर मोहमदपुर
29	47// 22/3 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	ईशवर सिंह, अतर सिंह, बलवान पुत्रान व श्रीमती छोटा देवी बिधवा तुलाराम पुत्र इच्छाराम हर चार समभाग 22/125 भाग श्रीमती बर्फी देवी बिधवा व सुभाषचन्द, श्रीभगवान, गोविन्द पुत्रान धनीराम पुत्र तुलाराम हर चार समभाग 6/125 भाग जयभगवान पुत्र कंवरलाल पुत्र तुलाराम 6/625 भाग खजान सिंह, रमेश सिंह पुत्रान कृपाराम पुत्र सदाराम हर दो समभाग 34/125 भाग अनुप सिंह पुत्र जीतराम पुत्र दयाराम 17/125 भाग वासीदेह सत्यानारायण पुत्र टेकचन्द पुत्र दयाराम 17/375 भाग वासी नितिन यादव, दीपक यादव, सोनल यादव पुत्रान सरूपनारायण पुत्र टेकचन्द हर तीन समभाग 17/750 भाग श्रीमती कमला देवी माता व श्रीमती बिमला देवी बिधवा व नितिन यादव, दीपक यादव, सोनल यादव पुत्रान सरूपनारायण पुत्र टेकचन्द हर पाँच समभाग 17/750 भाग रामकुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम 23/250 भाग वासीदेह श्रीमती कमलेश बिधवा व प्रवीन, दौलतराम पुत्रान जयनारायण पुत्र टेकचन्द हर तीन समभाग 17/500 भाग वासी जयभगवान पुत्र कंवरलाल पुत्र तुलाराम 24/625 भाग वासीदेह महेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम 23/250 भाग वासी सेदपुर मोहमदपुर दौलतराम, प्रवीन पुत्रान जयनारायण पुत्र टेकचन्द हर दो समभाग 17/1500 भाग वासीदेह
30	47// 23/2/1 min	चाही	निजी	0.0379	रामकुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम वासीदेह
31	47// 23/2/3 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025	ईशवर सिंह, अतर सिंह, बलवान पुत्रान व श्रीमती छोटा देवी बिधवा तुलाराम पुत्र इच्छाराम हर चार समभाग 22/125 भाग श्रीमती बर्फी देवी बिधवा व सुभाषचन्द, श्रीभगवान, गोविन्द पुत्रान धनीराम पुत्र तुलाराम हर चार समभाग 6/125 भाग जयभगवान पुत्र कंवरलाल पुत्र तुलाराम 24/625 भाग वासीदेह महेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम 23/250 भाग वासी सेदपुर मोहमदपुर जयभगवान पुत्र कंवरलाल पुत्र तुलाराम 6/625 भाग खजान सिंह, रमेश सिंह पुत्रान कृपाराम पुत्र सदाराम हर दो समभाग 34/125 भाग अनुप सिंह पुत्र जीतराम पुत्र दयाराम 17/125 भाग वासीदेह सत्यानारायण पुत्र टेकचन्द पुत्र दयाराम 17/375 भाग वासी नितिन यादव, दीपक यादव, सोनल यादव पुत्रान सरूपनारायण पुत्र टेकचन्द हर तीन समभाग 17/750 भाग श्रीमती कमला देवी माता व श्रीमती बिमला देवी बिधवा व नितिन यादव, दीपक यादव, सोनल यादव पुत्रान सरूपनारायण पुत्र टेकचन्द हर पाँच समभाग 17/750 भाग वासीदेह श्रीमती कमला देवी माता व श्रीमती कमलेश बिधवा व प्रवीन, दौलतराम पुत्रान जयनारायण पुत्र टेकचन्द हर चार समभाग 17/375 भाग वासी रामकुमार पुत्र हरिराम पुत्र दाताराम 23/250 भाग वासीदेह
<b>जोड़</b>				<b>0.5336</b>	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :					<b>फरुखनगर</b>
ग्राम का नाम :					<b>सुलतानपुर</b>
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7// 11 min	चाही	निजी	0.0025	कृष्ण पुत्र किशनलाल पुत्र हेतराम 1/2 भाग सुनील पुत्र रोहताश पुत्र किशनलाल 1/2 भाग वासीदेह
2	7// 20/1 min	चाही	निजी	0.1012	कृष्ण पुत्र किशनलाल पुत्र हेतराम 1/2 भाग सुनील पुत्र रोहताश पुत्र किशनलाल 1/2 भाग वासीदेह
3	7// 21/1/2/1 min	चाही	निजी	0.0076	कृष्ण पुत्र किशनलाल पुत्र हेतराम 1/2 भाग सुनील पुत्र रोहताश पुत्र किशनलाल 1/2 भाग वासीदेह
4	7// 21/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0304	कृष्ण पुत्र किशनलाल पुत्र हेतराम 1/2 भाग सुनील पुत्र रोहताश पुत्र किशनलाल 1/2 भाग वासीदेह
5	7// 21/2/2 min	चाही	निजी	0.0228	प्रकाश देई पत्नी पुत्र वासीदेह हकदार शामलात परीक्षत पुत्र जगमाल सिंह पुत्र पूर्ण वासी

6	8// 15/2/2 min	चाही	निजी	0.0076	सजय, सुनील पुत्रान राज सिंह पुत्र नवल सिंह हर दो समभाग 1/5 भाग मालकान कब्जा राजीव, उमेश पुत्रान जयनारायण पुत्र नवल सिंह हर दो समभाग 1/5 भाग मालकान कब्जा विकाश, विक्रम पुत्रान जिले सिंह पुत्र नवल सिंह हर दो समभाग 1/5 भाग मालकान कब्जा रविन्द्र उर्फ जितेन्द्र पुत्रान हरिओम पुत्र नवल सिंह हर दो समभाग 1/5 भाग मालकान कब्जा वासीदेह सुखबीर पुत्र नवल सिंह पुत्र रामप्रसाद 1/5 भाग मालिक कब्जा वासी खेडा झाझरोला इन्द्र सिंह आदि वासी हकदार शामलात
7	15// 1/2 min	चाही	निजी	0.0025	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
8	15// 2/2 min	चाही	निजी	0.0253	रामनिवास पुत्र उमराव पुत्र भगवाना 1/6 भाग मालिक कब्जा नारायण, रामपाल, रामकिशन पुत्रान सरजीत सिंह पुत्र उमराव हर तीन समभाग 1/8 भाग मालकान कब्जा श्रीमती कृष्णा, गीता पुत्रियां सरजीत सिंह पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/36 भाग मालकान कब्जा बलवान सिंह, शेर सिंह पुत्रान महा सिंह पुत्र हसराम हर दो समभाग 1/6 भाग मालकान कब्जा नारायण सिंह, रामपाल, रामकिशन पुत्रान व श्रीमती कृष्णा देवी, गीता देवी पुत्रियां सरजीत सिंह पुत्र हर पाँच समभाग 1/72 भाग मालकान कब्जा श्री भगवान पुत्र रामनाथ मिश्रा पुत्र 1/2 भाग मालिक कब्जा रामनिवास पुत्र खुशीया पुत्र 5/12 भाग श्रीमती पन्ना देवी पुत्री खुशीराम पुत्र 1/12 भाग नरेश आदि 673 खेवट 1/2 भाग वासीदेह हकदार शामलात
9	15// 9/1/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0202	सतपाल पुत्र व श्रीमती सतन, सुमन, कमलेश पुत्रियां व श्रीमती कस्तूरी बिधवा पोहपसिंह पुत्र हरिसिंह हर पाँच समभाग 5/36 भाग वासीदेह अभय सिंह पुत्र जगदीश पुत्र श्रीचन्द 1/4 भाग वासी फुला पुत्री हरि सिंह पुत्र भगवाना 1/12 भाग श्रीमती सरला देवी बिधवा व गोविन्द कुमार, योगेश कुमार पुत्रान हरपाल सिंह पुत्र रतीराम हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती कमलेश बिधवा व प्रदीप पुत्र स्व. चिरन्जीलाल पुत्र स्व. पोहप सिंह हर दो समभाग 1/36 भाग वासीदेह विष्णुदत्त पुत्र रामफल पुत्र श्रीचन्द 1/12 भाग वासी विष्णुदत्त पुत्र व शारदा, सुमन पुत्रियां व रामरती बिधवा रामफल पुत्र श्रीचन्द हर चार समभाग 1/6 भाग वासी
10	15// 9/2/1 min	चाही	निजी	0.0126	रामकुमार पुत्र रघबीर सिंह पुत्र मुन्शीराम 1/2 भाग मालिक कब्जा वासी खेडा झाझरोला मवासी आदि हकदार शामलात श्रीमती गीता पत्नी व नीरज यादव, धीरज, कृष्ण, सुमन देवी पुत्रान बालकिशन पुत्र हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासीदेह
11	15// 12/2 min	चाही	निजी	0.0101	जगदीश पुत्र श्रीचन्द पुत्र भगवाना 1/6 भाग मालिक कब्जा शारदा, सुमन पुत्रियां व रामरती बिधवा रामफल पुत्र श्रीचन्द हर तीन समभाग 5/24 भाग मालकान कब्जा पोहप सिंह पुत्र हरि सिंह पुत्र भगवाना 1/6 भाग मालिक कब्जा अभय सिंह पुत्र जगदीश पुत्र 1/12 भाग मालिक कब्जा श्रीमती सरला देवी बिधवा व गोविन्द कुमार, योगेश कुमार पुत्रान हरपाल सिंह पुत्र रतीराम हर तीन समभाग 1/4 भाग मालकान कब्जा श्रीमती चावली आदि खेवट न.1047/1 हकदार शामलात विष्णु पुत्र रामफल पुत्र 1/8 भाग वासीदेह
12	15// 13/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0253	अभयसिंह पुत्र जगदीश पुत्र श्रीचन्द 1/4 भाग वासी बिशनु पुत्र रामफल पुत्र श्रीचन्द 1/8 भाग श्रीमती शारदा, सुमन पुत्रियां व रामरती बिधवा रामफल पुत्र श्रीचन्द हर तीन समभाग 1/8 भाग सतपाल पुत्र पोहपसिंह पुत्र हरिसिंह 1/9 भाग श्रीमती किस्तुरी बिधवा पोहपसिंह पुत्र हरिसिंह 1/36 भाग श्रीमती सरला देवी बिधवा व गोविन्द कुमार, योगेश कुमार पुत्रान हरपाल सिंह पुत्र रतीराम हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती कमलेश बिधवा व प्रदीप पुत्र स्व. चिरन्जीलाल पुत्र स्व. पोहप सिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह
13	15// 18/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0456	अभयसिंह पुत्र जगदीश पुत्र श्रीचन्द 1/4 भाग वासी बिशनु पुत्र रामफल पुत्र श्रीचन्द 1/8 भाग श्रीमती शारदा, सुमन पुत्रियां व रामरती बिधवा रामफल पुत्र श्रीचन्द हर तीन समभाग 1/8 भाग सतपाल पुत्र पोहपसिंह पुत्र हरिसिंह 1/9 भाग श्रीमती किस्तुरी बिधवा पोहपसिंह पुत्र हरिसिंह 1/36 भाग श्रीमती सरला देवी बिधवा व गोविन्द कुमार, योगेश कुमार पुत्रान हरपाल सिंह पुत्र रतीराम हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती कमलेश बिधवा व प्रदीप पुत्र स्व. चिरन्जीलाल पुत्र स्व. पोहप सिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह
14	15// 23/2 min	चाही	निजी	0.0253	बिजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दगीराम पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/2 भाग मालिक कब्जा विजय सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/4 भाग मालिक कब्जा अजय पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/4 भाग मालिक कब्जा राम सिंह पुत्र खुशीया पुत्र 5/12 भाग श्रीमती पन्ना देवी पुत्री खुशीराम पुत्र 1/12 भाग नरेश आदि 673 खेवट 1/2 भाग वासीदेह

					हकदार शामलात
15	15// 24/1/1 min	चाही	निजी	0.0152	बिजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दगीराम पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/2 भाग मालिक कब्जा विजय सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/4 भाग मालिक कब्जा अजय पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/4 भाग मालिक कब्जा राम सिंह पुत्र खुशीया पुत्र 5/12 भाग श्रीमती पन्ना देवी पुत्री खुशीराम पुत्र 1/12 भाग नरेश आदि 673 खेवट 1/2 भाग वासीदेह हकदार शामलात
16	33// 4/2/1 min	चाही	निजी	0.0101	बिजेन्द्र सिंह पुत्र चन्दगीराम पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/2 भाग विजय सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह उर्फ धर्मा 1/4 भाग अजय पुत्र राज सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/4 भाग वासीदेह
17	33// 4/2/2/1 min	चाही	निजी	0.0253	सुधीर कुमार पुत्र पीताम्बरदत्त शास्त्री पुत्र वासी सी-ब्लाक वासी विकासपुरी दिल्ली
18	33// 4/2/2/2 min	चाही	निजी	0.0051	हिमाल गुप्ता पुत्र गुलशन गुप्ता पुत्र वासी विकासपुरी, नई दिल्ली
19	33// 7/1 min	चाही	निजी	0.0354	भुप सिंह, नन्दलाल पुत्रान कन्हैयालाल दत्तक पुत्र बिहारी हर दो समभाग 2/3 भाग वासी दीपक कुमार, रोहित कुमार पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र कन्हैयालाल हर दो समभाग 1/3 भाग वासी
20	33// 14/2 min	चाही	निजी	0.0025	भुप सिंह, नन्दलाल पुत्रान कन्हैयालाल दत्तक पुत्र बिहारी हर दो समभाग 2/3 भाग वासी दीपक कुमार, रोहित कुमार पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र कन्हैयालाल हर दो समभाग 1/3 भाग वासी
21	33// 15/2 min	चाही	निजी	0.0329	भुप सिंह, नन्दलाल पुत्रान कन्हैयालाल दत्तक पुत्र बिहारी हर दो समभाग 2/3 भाग वासी दीपक कुमार, रोहित कुमार पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र कन्हैयालाल हर दो समभाग 1/3 भाग वासी
22	33// 16/1 min	चाही	निजी	0.0405	औम सिंह दत्तक पुत्र नानक पुत्र गगाबक्श 215/1401 भाग मालिक कब्जा वासीदेह मालक कामल व हकदार शामलात सतीश कुमार पुत्र रामचन्द्र 1/3 भाग मालिक कब्जा वासी मानेशर रामनिवास, पोहप सिंह पुत्रान हरिकिशन पुत्र रतीराम हर दो समभाग 1438/4203 भाग मालकान कब्जा अमीलाल, केहर सिंह पुत्रान गगाबक्श पुत्र हर दो समभाग हकदार शामलात गोबिन्द पुत्र अतर सिंह पुत्र हरिकिशन 719/4203 भाग वासीदेह
23	33// 25/2 min	चाही	निजी	0.0329	औम सिंह दत्तक पुत्र नानक पुत्र गगाबक्श 215/1401 भाग मालिक कब्जा वासीदेह मालक कामल व हकदार शामलात सतीश कुमार पुत्र रामचन्द्र 1/3 भाग मालिक कब्जा वासी मानेशर रामनिवास, पोहप सिंह पुत्रान हरिकिशन पुत्र रतीराम हर दो समभाग 1438/4203 भाग मालकान कब्जा अमीलाल, केहर सिंह पुत्रान गगाबक्श पुत्र हर दो समभाग हकदार शामलात गोबिन्द पुत्र अतर सिंह पुत्र हरिकिशन 719/4203 भाग वासीदेह
24	43// 1/2 min	चाही	निजी	0.0253	सुरेश पुत्र जगदीश पुत्र 1/14 भाग वासी अशोक पुत्र व ओमवती, उर्मिला पुत्रियां मेदा राम पुत्र हर तीन समभाग 3/7 भाग वासी अभिलाष यादव, विनीत, अमन यादव पुत्रान व श्रीमती बबीता बिधवा जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश हर चार समभाग 1/35 भाग सुनील यादव, करण सिंह यादव, मनीष यादव पुत्रान व मोनिका यादव पुत्री व श्रीमती कृष्णा देवी बिधवा रमेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण हर पाँच समभाग 1/14 भाग वासीदेह अंगूरी बिधवा सत्यप्रकाश पुत्र 1/40 भाग वासी अनिल, प्रवीन, नवीन, मनोज पुत्रान सत्यप्रकाश पुत्र हर चार समभाग 33/280 भाग वासी महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र 4/35 भाग वासी बलवन्ति बिधवा प्रेम प्रकाश पुत्र 1/32 भाग वासी वीरेन्द्र, संजय, तुलसी पुत्रान प्रेम प्रकाश पुत्र हर तीन समभाग 25/224 भाग वासी
25	43// 10/1 min	चाही	निजी	0.0304	सुरेश पुत्र जगदीश पुत्र 1/14 भाग वासी अशोक पुत्र व ओमवती, उर्मिला पुत्रियां मेदा राम पुत्र हर तीन समभाग 3/7 भाग वासी अभिलाष यादव, विनीत, अमन यादव पुत्रान व श्रीमती बबीता बिधवा जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश हर चार समभाग 1/35 भाग सुनील यादव, करण सिंह यादव, मनीष यादव पुत्रान व मोनिका यादव पुत्री व श्रीमती कृष्णा देवी बिधवा रमेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण हर पाँच समभाग 1/14 भाग वासीदेह अंगूरी बिधवा सत्यप्रकाश पुत्र 1/40 भाग वासी अनिल, प्रवीन, नवीन, मनोज पुत्रान सत्यप्रकाश पुत्र हर चार समभाग 33/280 भाग वासी महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र 4/35 भाग वासी बलवन्ति बिधवा प्रेम प्रकाश पुत्र 1/32 भाग वासी वीरेन्द्र, संजय, तुलसी पुत्रान प्रेम प्रकाश पुत्र हर तीन समभाग 25/224 भाग वासी



26	43// 11/2 min	चाही	निजी	0.0304	सुरेश पुत्र जगदीश पुत्र 1/14 भाग वासी अशोक पुत्र व ओमवती, उर्मिला पुत्रियां मेदा राम पुत्र हर तीन समभाग 3/7 भाग वासी अभिलाष यादव, विनीत, अमन यादव पुत्रान व श्रीमती बबीता बिधवा जितेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश हर चार समभाग 1/35 भाग सुनील यादव, करण सिंह यादव, मनीष यादव पुत्रान व मोनिका यादव पुत्री व श्रीमती कृष्णा देवी बिधवा रमेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण हर पाँच समभाग 1/14 भाग वासीदेह अंगूरी बिधवा सत्यप्रकाश पुत्र 1/40 भाग वासी अनिल, प्रवीन, नवीन, मनोज पुत्रान सत्यप्रकाश पुत्र हर चार समभाग 33/280 भाग वासी महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र 4/35 भाग वासी बलवन्ति बिधवा प्रेम प्रकाश पुत्र 1/32 भाग वासी वीरेन्द्र, संजय, तुलसी पुत्रान प्रेम प्रकाश पुत्र हर तीन समभाग 25/224 भाग वासी
27	43// 19/1 min	चाही	निजी	0.0202	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्दरसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सूरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
28	43// 20/1 min	चाही	निजी	0.0126	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्दरसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सूरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
29	43// 22/2 min	चाही	निजी	0.0304	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्दरसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सूरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
30	65// 2/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0278	रमेश पुत्र हरनारायण पुत्र बदलूराम 1/6 भाग बलवानसिंह, सतबीरसिंह पुत्रान हरीराम पुत्र बदलूराम हर दो समभाग 1/3 भाग नरेन्द्र सिंह पुत्र व पूनम, अनुपम, रूपम पुत्रियां व सन्नो देवी बिधवा दयानन्द पुत्र हरनारायण हर पाँच समभाग 1/6 भाग सतबीरसिंह पुत्र रघबीर सिंह पुत्र श्रीचन्द 1/6 भाग राजदुलारी बिधवा बिशन सरूप पुत्र ग्यारसी लाल 1/6 भाग वासीदेह
31	65// 9/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0354	रमेश पुत्र हरनारायण पुत्र बदलूराम 1/6 भाग बलवानसिंह, सतबीरसिंह पुत्रान हरीराम पुत्र बदलूराम हर दो समभाग 1/3 भाग नरेन्द्र सिंह पुत्र व पूनम, अनुपम, रूपम पुत्रियां व सन्नो देवी बिधवा दयानन्द पुत्र हरनारायण हर पाँच समभाग 1/6 भाग सतबीरसिंह पुत्र रघबीर सिंह पुत्र श्रीचन्द 1/6 भाग राजदुलारी बिधवा बिशन सरूप पुत्र ग्यारसी लाल 1/6 भाग वासीदेह
32	65// 12/2 min	चाही	निजी	0.0404	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्दरसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी

					व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सुरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
33	65// 18/1 min	चाही	निजी	0.0177	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्द्रसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सुरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
34	65// 19/1 min	चाही	निजी	0.0202	वेदसिंह, निहालसिंह, इन्द्राज पुत्रान रघबीरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग गोरधनसिंह, जयइन्द्रसिंह, विनोद पुत्रान नैपालसिंह पुत्र रघबीरसिंह हर तीन समभाग 1/16 भाग सीसपाल पुत्र भागसिंह पुत्र स्यालूसिंह 1/27 भाग वासीदेह श्रीमती सरसवती पत्नी व अजीतसिंह पुत्र सीसपाल पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 2/27 भाग वासी श्रीमती गुडडी पत्नी सुरजपालसिंह पुत्र भागसिंह 1/18 भाग वासी जयबीरसिंह, सुखबीरसिंह पुत्रान औमपालसिंह पुत्र भागसिंह हर दो समभाग 1/9 भाग वासीदेह मूलचन्द, बाबूसिंह पुत्रान छतरसिंह पुत्र स्यालूसिंह हर दो समभाग 2/9 भाग वासी श्रीमती रामवती बिधवा व शिवकुमार, विरेन्द्र पुत्रान जगदेव पुत्र नेपाल हर तीन समभाग 1/48 भाग वासीदेह प्रदीप कुमार पुत्र भीम सिंह पुत्र छतरसिंह 1/9 भाग वासी गुडडी बिधवा व शिवकुमार, राहुल पुत्रान व गीता देवी पुत्री सुरजपाल सिंह पुत्र हर चार समभाग 1/18 भाग वासी
35	65// 23/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0354	राजेश कुमार, हरिप्रकाश पुत्रान लालचन्द पुत्र भुरु हर दो समभाग मालकान कब्जा वासी ईस्लामपुर सवाई सिंह पुत्र रुघनाथ पुत्र वासीदेह हकदार शामलात
36	76// 3/2/1 min	चाही	निजी	0.0152	नितेश बिन्दल पुत्र नरेश बिन्दल पुत्र 1/4 भाग वासी नई दिल्ली श्रीमती शशि बिन्दल पत्नी नरेश बिन्दल पुत्र 1/4 भाग वासी नई दिल्ली हितेश गोयल पुत्र केलाश गोयल पुत्र 1/2 भाग वासी नई दिल्ली
37	76// 3/2/2 min	चाही	निजी	0.0101	सुरेशचन्द पुत्र श्रीकिशन पुत्र जियालाल 561/1709 भाग नवीन गुप्ता, तरुण गुप्ता पुत्रान सुरेशचन्द पुत्र श्रीकिशन हर दो समभाग 574/1709 भाग उषा देवी पत्नी सुरेश चन्द पुत्र श्रीकिशन 574/1709 भाग वासीदेह
38	76// 8/2/1 min	चाही	निजी	0.0101	करनसिंह पुत्र जगराम पुत्र खुशीराम वासी कादीपुर त. व जिला गुडगावाँ
39	76// 23/2 min	चाही	निजी	0.0253	अशोक कुमार पुत्र जगराम पुत्री खुशीराम वासी कादीपुर वासी तहसील गुडगाँव
40	99// 3/2 min	चाही	निजी	0.0404	राकेशकुमार पुत्र दुलीचन्द पुत्र 213/320 भाग मालिक कब्जा वासीदेह श्रीमती बेदी बिधवा दुलीचन्द पुत्र 107/320 भाग मालिक कब्जा वासी झाडसा हुक्मसिंह, रामचन्द्र, लछमनसिंह पुत्रान पुत्र हर तीन समभाग 7/16 भाग श्रीमती सन्तरादेवी पुत्री सुमेरसिंह दत्तक पुत्र रुघनाथ 1/16 भाग श्रीमती रेनीदेवी बिधवा व नैनपालसिंह, रामकिशन पुत्रान व श्रीमती सुरेशदेवी, बिनेशदेवी, रमेशदेवी, सुमनदेवी, सरवेशदेवी पुत्रियां अरजन पुत्र शिवसिंह हर आठ समभाग 1/2 भाग वासीदेह हकदार शामलात
41	99// 8/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0404	राकेश कुमार पुत्र दुलीचन्द पुत्र मांगेराम मालिक कब्जा उदयसिंह आदी खेवत न. 172 पुत्र वासीदेह हकदार शामलात
42	99// 13/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0658	दिनेश पुत्र शुभराम पुत्र शिवलाल मालिक कब्जा वासी सलजनाद प्रकाश सिंह आदि वासीदेह हकदार शामलात

43	99// 18/1 min	चाही	निजी	0.0126	सोमबीर, रतीपाल, महीपाल पुत्रान नारायण सिंह पुत्र हर तीन समभाग मालिक कामिल 3/27 भाग मालिक काबिज 24/27 भाग मालकान कब्जा अफलातून आदी पुत्रान श्रीमति केला खेवट न. वासीदेह हकदार शामिलत
44	99// 23/2 min	मगदा	निजी	0.0202	सोमबीर, रतीपाल, महीपाल पुत्रान नारायण सिंह पुत्र हर तीन समभाग वासी
45	99// 24/1 min	बंजर कदीम	निजी	0.0101	महाबीर पुत्र रूप सिंह वासीदेह
46	110// 4/2/1 min	चाही	निजी	0.1518	महाबीरसिंह पुत्र रूपसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह वासीदेह
47	110// 7/2/1 min	चाही	निजी	0.0101	महाबीरसिंह पुत्र रूपसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह वासीदेह व कुलदीप, धर्मबीर पुत्रान चमेलाराम हर दो समभाग 2/3 भाग सुरेश शर्मा पुत्र वेदप्रकाश शर्मा 1/3 भाग वासीदेह व मैसर्ज के के अपार्टमेंट प्रा. लि. पुत्र वासीदेह
48	128// 20/2 min	चाही	निजी	0.0051	श्रीमती चन्द्रकौर पुत्री कुडिया उर्फ कूडाराम पुत्र नोनद सिंह वासीदेह
49	130// 18 min	बंजर कदीम	निजी	0.0025	बृजनन्दन शर्मा पुत्र सत्यनारायण वकूट पुत्र 47/480 भाग वासी अजमनपुर, वैसाली व श्रीमती अनिता देवी पत्नी पुर्ण सिंह पुत्र परसुराम 1/120 भाग वासी बासलाम्बी वासी फरुखनगर श्रीमती गिता पत्नी श्री कृष्ण सैनी पुत्र हरिसिंह 1/120 भाग श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी बनवारी लाल पुत्र प्रभुदयाल 1/120 भाग श्रीमती बीना पत्नी मनीत कुमार पुत्र 1/240 भाग बिशम्बर दयाल यादव पुत्र नेत्रपाल यादव पुत्र 1/144 भाग अनुज कुमार पुत्र मीर सिंह पुत्र 1/240 भाग दिनेश कुमार पुत्र राजकुमार पुत्र 1/240 भाग श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी डुगर मल पुत्र मनोहर लाल सैनी 1/96 भाग श्रीमती औमवती पत्नी औमप्रकाश सैनी पुत्र मनोहर लाल सैनी 1/60 भाग श्रीमती शान्ती देवी पत्नी ब्रिजलाल शर्मा पुत्र बन्शीलाल 23/2160 भाग श्यामवीर सिंह पुत्र राजपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह 1/120 भाग श्रीमती मोनिका भारद्वाज पत्नी सुशील शर्मा पुत्र 1/120 भाग श्रीमती सरोज देवी पत्नी मामराज सैनी पुत्र मनोहरलाल सैनी 59/4320 भाग श्रीमती अनिता देवी पत्नी नारायण सिंह पुत्र मनोहरलाल सैनी 11/1080 भाग प्रमिला देवी पत्नी अमर सिंह सैनी पुत्र राम सैनी 59/4320 भाग श्रीमती सरोज देवीपत्नी बाबुलालसिंह पुत्र रघबीर सिंह 1/120 भाग श्रीमती आशा पत्नी अजीत पुत्र औमप्रकाश 1/120 भाग रविदत्त, प्रदीप कुमार पुत्रान अमर सिंह पुत्र हर दो समभाग 1/120 भाग श्रीमती राजबाला पत्नी बाबुलाल पुत्र औमप्रकाश 1/120 भाग प्रदीप पुत्र सुरेन्द्र पुत्र 11/1440 भाग श्रीमती ममता पत्नी राजेन्द्र पुत्र देशराज सैनी 7/1440 भाग रमेश कुमार पुत्र माडुराम पुत्र लेखराम 1/32 भाग श्रीमती वन्दना सिधल पत्नी अनुप सिधल पुत्र 13/1080 भाग श्रीमती ममता रानी पत्नी भूषण कुमार पुत्र 13/1080 भाग वासीदेह श्रीमती सरिता पत्नी ललित कुमार पुत्र बदलूराम 1/144 भाग वासी नई दिल्ली श्रीमती कृष्णा पत्नी अमय सिंह पुत्र झूथर 19/1080 भाग वासी काकरौला श्रीमती सुनीता पत्नी राजगोपाल पुत्र 7/720 भाग वासी बिजवासन वासी दिल्ली श्रीमती शीला देवी पत्नी महेश राणा पुत्र 1/144 भाग वासी बिजवासन दिल्ली गोरव कालडा पुत्र लाजपतराय कालडा पुत्र 1/120 भाग वासी रामनगर वासी गुडगाँव राजेश पुत्र सुरेन्द्र पुत्र 1/40 भाग वासी खेडा जान्दरोला श्रीमती सुनीता त्यागी पत्नी नरेश त्यागी पुत्र दीपचन्द त्यागी 7/720 भाग वासी दौलताबाद श्रीमती मानबाई पत्नी कुन्दमसिंह पुत्र 1/60 भाग नन्दलाल पुत्र कुन्दनसिंह पुत्र रघबीरसिंह 5/288 भाग श्रीमती हसीना पत्नी कबीशर पुत्र अडगपाल सिंह 1/120 भाग श्रीमती लता देवी पत्नी लालसिंह पुत्र रगबीर सिंह 53/4320 भाग श्रीमती चन्द्रवती पत्नी मामचन्द पुत्र रामचन्द्र 1/120 भाग श्रीमती बबीता पत्नी कवरपाल पुत्र राजपाल 53/4320 भाग सुनीता यादव पत्नी प्रदीप सिंह पुत्र 19/4320 भाग सुदेश यादव पत्नी जगदीप सिंह पुत्र 19/4320 भाग चमेली देवी पत्नी रमेशचन्द पुत्र अमीलाल 1/40 भाग ज्योती राठोर पत्नी रविन्द्र सिंह राठोर पुत्र 1/144 भाग अंजली पत्नी बिजेन्द्र कुमार पुत्र 1/120 भाग वासीदेह श्रीमती सुनीता पत्नी धर्मबीर पुत्र 19/4320 भाग वासी कार्टरपुरी वासी गुडगाव श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी जोगीराम पुत्र हरि सिंह 1/240 भाग वासीदेह श्रीमती पणित पत्नी उशील पुत्र नवल सिंह 1/144 भाग वासी हयातपुर वासी तह.व जिला गुडगाव श्रीमती किरन कटारिया पत्नी पवन कुमार पुत्र 1/144 भाग वासी नजफगढ वासी दिल्ली श्रीमती इन्दु बाला पत्नी संजीव कुमार पुत्र 1/216 भाग वासी नजफगढ वासी दिल्ली-43 मनीष कुमार पुत्र कमलेश पुत्र 1/120 भाग वासी केशवनगर वासी तह. नारनौल, जि. महेश्वर श्रीमती कृष्णा पत्नी निखिलेश कुमार पुत्र रिसाल सिंह 19/4320 भाग वासी जे.565 गली न. 16 वासी अशोक विहार गुडगा सविता रानी पत्नी राजेन्द्र कुमार गोयल पुत्र 4/135 भाग वासी

					<p>ओंकार नगर ऐ वासी त्रीनगर दिल्ली मोहित गोयल पुत्र राजेन्द्र कुमार गोयल पुत्र 23/1080 भाग वासी ओंकार नगर ऐ वासी श्रीनगर दिल्ली श्रीमती अनुराधा थापर पत्नी अशवनी कुमार थापर पुत्र 2/135 भाग वासी तिलकनगर वासी नई दिल्ली अनिल कुमार पुत्र नवल सिंह पुत्र 19/4320 भाग वासी नई दिल्ली वासी , श्रीमती जनक सेठ पत्नी रविन्द्र कुमार सेठ पुत्र 1/240 भाग वासी रमेशनगर वासी वेस्ट दिल्ली बिरेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दन सिंह पुत्र रघबीरसिंह 77/4320 भाग वासीदेह कुलदीप पुत्र सुरेश कुमार पुत्र रामकंवार 1/135 भाग वासी वार्ड न.2 हरपाल पुत्र बनवारी पुत्र 59/2160 भाग श्रीमती बिमला गुप्ता पत्नी हरेन्द्र गुप्ता पुत्र 7/120 भाग वासीदेह भावना पुत्री प्रदीप कुमार पुत्र मुलचन्द 1/240 भाग वासी फिरोज गाधी कालोनी वासी फेस-1 गुडगावा श्रीमती शोभा रानी पत्नी सरुप सिंह पुत्र मुलचन्द 1/240 भाग वासी मदनपुरी गली न.11 वासी गुडगावा श्रीमती शशी पत्नी रामनिवास पुत्र मामचन्द 1/60 भाग वासीदेह श्रीमती सोनिका शर्मा पत्नी बिपन शर्मा पुत्र 17/1440 भाग वासी म.न.76811 ऐ वासी कार्टरपुरी गुडगाव श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी औमप्रकाश पुत्र 1/120 भाग वासी श्याम विहार वासी नजफगढ हरी मोहन लुहारूका पुत्र पशुपति नाथ लुहारूका पुत्र 67/4320 भाग वासी बेगूसराय वासी विहार श्रीमती प्रेम पत्नी दुलीचन्द पुत्र हरद्वारीलाल 1/240 भाग वासीदेह श्रीमती अनुप देवी पत्नी हीरा सिंह पुत्र माधव सिंह 1/240 भाग वासी खेडला वासी सोहना गुरुग्राम जितेन्द्र पुत्र रामकिशन पुत्र 41/1440 भाग वासीदेह श्रीमती बर्फी पत्नी हरी सिंह पुत्र 1/180 भाग वासी म.न.328 वासी कार्टरपुरी गुडगाव श्रीमती रूपा अग्रवाल पत्नी मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र 17/1080 भाग वासी म.न.606/23 वासी तिकोना पार्क गुरुग श्रीमती अनिता देवी पत्नी जगबीर सिंह यादव पुत्र दुलीचन्द 19/2160 भाग वासी नाहरपुर सै-7 वासी रोहिणी दिल्ली सुधीर पुत्र नारायणसिंह पुत्र श्योनारायण 13/540 भाग वासीदेह सुमन पत्नी ओमेश यादव पुत्र बलबीर सिंह 1/96 भाग वासी खरखडी नाहर दिल्ली राहुल पुत्र सुभाष पुत्र श्मोनाथ 25/432 भाग वासीदेह श्रीमती कलावती पत्नी सुरेश कुमार पुत्र रामपाल प्रजापत 1/144 भाग वासी वार्ड नं० 12 वासी गुरुग्राम श्रीमती प्रिया पुत्री भीम सिंह पुत्र 1/240 भाग वासी साधनगर पालम गाव नई दिल्ली</p>
50	143// 4/2 min	गैर मुमकिन क्यारी नमक	निजी	0.0025	<p>बालकिशन, रमेश पुत्रान व सावत्री पुत्री निहालचन्द पुत्र हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती कुसम बिधवा व अरुण पुत्र व निशा, उषा, संध्या पुत्रियां सत्यदेव पुत्र निहालचन्द हर पाँच समभाग 1/12 भाग सतीश पुत्र व नलीनी पुत्री सत्या पुत्री निहालचन्द हर दो समभाग 1/18 भाग कौशल्या बिधवा लक्ष्मीनारायण 1/12 भाग श्रीमती प्रतिमा शर्मा बिधवा व सुप्रीति पुत्री श्री सुधीर शर्मा पुत्र सत्या शर्मा हर दो समभाग 1/36 भाग वासीदेह LMJ CONSULTANCY PVT. LTD. Director Vivek Mishra 1/2 भाग वासी जनकपुरी नई दिल्ली</p>
51	143// 6 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025	<p>विजय जैन पुत्र महेशचन्द जैन पुत्र मालिक कब्जा वासी झाडसा इन्दर आदि वासीदेह हकदार शामलात</p>
52	143// 15/1/2 min	चाही	निजी	0.0025	<p>रामफुल पुत्र बदलूसिंह पुत्र परसा 61/512 भाग रमेश पुत्र बदलूसिंह पुत्र परसा 99/1280 भाग श्रीमती कमला, राजवती, जयवती, रोशनी पुत्रियां बदलूसिंह पुत्र परसा हर चार समभाग 457/3200 भाग श्रीमती रामवती पत्नी जगदेव पुत्र 457/25600 भाग परिक्षित पुत्र बदलू सिंह पुत्र 5/16 भाग सुरेन्द्र, सुन्दर, अशोक पुत्रान कालू पुत्र हर तीन समभाग 5/24 भाग संगीता, शारदा पुत्रियां व कैलाश बिधवा कालू पुत्र हर तीन समभाग 5/48 भाग श्रीमती कमला देवी पत्नी पहलाद सिंह पुत्र जीसुख 457/25600 भाग वासीदेह</p>
53	143// 15/2/2 min	गैर मुमकिन क्यारी नमक	निजी	0.0025	<p>रमेश पुत्र बदलूसिंह पुत्र परसा 1409/6400 भाग श्रीमती रामवती पत्नी जगदेव पुत्र 457/25600 भाग वासीदेह शारदा पुत्री व श्रीमती कैलाश बिधवा कालू पुत्र हर दो समभाग 5/72 भाग वासी कमल सिंह, किशन, हरिकशन, महेन्द्र सिंह पुत्रान परिक्षित सिंह पुत्र परसा हर चार समभाग 5/16 भाग श्रीमती कमला देवी पत्नी पहलाद सिंह पुत्र जीसुख 457/25600 भाग वासीदेह सुरेन्द्र सिंह, अशोक कुमार, सुन्दर सिंह पुत्रान कालू सिंह पुत्र हर तीन समभाग 35/144 भाग वासी श्रीमती पूजा यादव पत्नी जितेन्द्र यादव पुत्र धर्मबीर 61/512 भाग वासी</p>
54	143// 16/1 min	चाही	निजी	0.0051	<p>दशरथ, राज सिंह, रगलाल, बाबूलाल पुत्रान व बिमला बिधवा रमेश पुत्र सरदार हर पाँच समभाग 5/6 भाग मालकान कब्जा दीपक, प्रवेश पुत्रान व सामवन्ती बिधवा कृष्ण पुत्र हर तीन समभाग 1/6 भाग मालकान कब्जा जगजीत पुत्र रोहताश पुत्र वासीदेह हकदार शामलात</p>

55	191// 9/1 min	चाही	सरकारी	0.0051	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
56	191// 12/2 min	चाही	निजी	0.0101	बलवान सिंह, सतबीर सिंह पुत्रान हरीराम पुत्र बदलूराम हर दो समभाग 1/72 भाग वासीदेह रामनाथ पुत्र जयसिंह पुत्र बने सिंह 7/2592 भाग वासी कृष्णा पुत्री रूपा पुत्र लक्खी 7/1152 भाग वासीदेह गऊशाला छावनी 1/8 भाग वासी गुडगाव महेश उर्फमहासिंह पुत्र छज्जनसिंह पुत्र 1/4 भाग वासीदेह लक्ष्मण सिंह उर्फकप्तान सिंह पुत्र तुल्ला पुत्र लक्खी 7/2304 भाग वासी राजेन्द्र सिंह, समय सिंह पुत्रान व राजवती, बिमलेश, कमलेश पुत्रियां रतन सिंह पुत्र कालिया हर पाँच समभाग 35/10368 भाग वासी मुन्शी सिंह पुत्र व श्रीमती सन्तोष पुत्री दुर्जन सिंह पुत्र हर दो समभाग 7/2592 भाग दीपक कुमार, मनोज कुमार पुत्रान व प्रीति, मन्जू पुत्रियां व श्रीमती औमवती बिधवा चिरन्जी पुत्र दुर्जन सिंह हर पाँच समभाग 7/5184 भाग वासीदेह कौशल्या, सरोज पुत्रियां व विजयपाल पुत्र सुमेर सिंह पुत्र कालिया हर तीन समभाग 7/1728 भाग वासी सुरेन्द्र सिंह, बाबू सिंह पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री अर्जुन सिंह पुत्र जय सिंह हर तीन समभाग 7/2304 भाग अलि कुमार पुत्र व श्रीमती बिमला बिधवा हरद्वारी पुत्र हर दो समभाग 7/4608 भाग वासीदेह श्रीमती शकुन्तला, मेदो पुत्रियां मुसद्दी पुत्र बने सिंह हर दो समभाग 7/2304 भाग वासी कन्हैया पुत्र व निर्मला देवी बिधवा व दर्शना देवी, जीतबाई, कुशम देवी, सुनीता देवी, शशीबाला पुत्रियां रामौतार पुत्र तुहिया हर सात समभाग 7/1152 भाग अडीसाल पुत्र व रामकली पुत्री चन्दर पुत्र मोहन हर दो समभाग 7/270 भाग बिजेन्द्र सिंह, महाबीर सिंह, चिरन्जी पुत्रान व ब्रहमा, रोशनी पुत्रियां व श्रीमती अतरो बिधवा गज सिंह पुत्र चन्दर हर छः समभाग 7/540 भाग मनबीर सिंह, तेजबीर सिंह, सतबीर सिंह पुत्रान व अन्तरबाई, माया, कमला पुत्रियां व श्रीमती अशरफी देवी बिधवा पिताम्बर सिंह पुत्र चन्दर सिंह हर सात समभाग 7/720 भाग ढाल सिंह, कंचन सिंह पुत्रान राजवती पुत्र छत्रपाल सिंह हर दो समभाग 1/96 भाग वेद सिंह, निहाल सिंह, ईन्द्राज सिंह पुत्रान व सुगना, उगम, बिमला, फत्तो पुत्रियां व सुमेरा बिधवा रघबीर सिंह पुत्र स्यालू हर आठ समभाग 1/30 भाग वासीदेह गोरधन सिंह, जयइन्दर सिंह, विनोद पुत्रान व पुष्पा, सरोज, ब्रजबाला पुत्रियां व श्रीमती केला देवी बिधवा नैपाल सिंह पुत्र रगबीर सिंह हर सात समभाग 1/240 भाग वासी हरपाल सिंह, हरज्ञान सिंह, करतार पुत्रान श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री रघबीर सिंह हर तीन समभाग 1/240 भाग सीसपाल सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र स्यालू सिंह 1/216 भाग श्रीमती सरस्वती पत्नी व अजीत सिंह पुत्र सीसपाल सिंह पुत्र भाग सिंह हर दो समभाग 1/108 भाग वासीदेह श्रीमती गुड्डी बिधवा व शिव कुमार, राहुल पुत्रान व रीता पुत्री सुरजपाल सिंह पुत्र भाग सिंह हर चार समभाग 1/144 भाग वासी जयबीर सिंह, सुखबीर सिंह पुत्रान व श्रीमती सावत्री बिधवा औमपाल सिंह पुत्र हर तीन समभाग 1/72 भाग श्रीमती शरवती बिधवा व मूलचन्द, बाबूसिंह, भीम सिंह पुत्रान व सूमली पुत्री छत्र सिंह पुत्र हर पाँच समभाग 1/24 भाग ओमप्रकाश, जयवीर, तेजपाल पुत्रान शिवनारायण पुत्र हर तीन समभाग 7/2592 भाग मनोज कुमार, सुधीर सिंह पुत्रान व पुनम पुत्री व श्रीमती कात्ता देवी बिधवा जगदीश कुमार पुत्र हर चार समभाग 7/4608 भाग सुनीता देवी पुत्री व सुरेन्द्र सिंह, बाबू सिंह पुत्रान श्रीमती पिस्ता देवी पत्नी अर्जुन सिंह हर तीन समभाग 7/6912 भाग राकेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह पुत्र तुलाराम 7/4608 भाग वासीदेह पिस्ता देवी बिधवा व सुरेन्द्र, बाबूसिंह पुत्रान व सुनीता पुत्री अर्जुन सिंह पुत्र जयसिंह हर चार समभाग 7/2592 भाग वासी विजय कुमार, अजय चौहान, संजय सिंह पुत्रान व आशा रानी पुत्री राम कुमार उर्फ रामकुवार पुत्र तुलाराम हर चार समभाग 7/4608 भाग वासी मोहन सिंह, रविन्द्र सिंह, अजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती उषा रानी पुत्री व श्रीमती किरण देवी बिधवा सुन्दर सिंह पुत्र रतन सिंह हर पाँच समभाग 7/10368 भाग वासी बिमला देवी बिधवा व हेमलता, दीपलाता पुत्रियां व मुकेश कुमार पुत्र जगदीश पुत्र मुसद्दी हर चार समभाग 7/4608 भाग वासी श्रीमती गुड्डी पत्नी सुरजपाल पुत्र भागसिंह 1/144 भाग वासी रमेश पुत्र हरनारायण पुत्र बदलूराम 1/144 भाग वासी नरेन्द्र सिंह पुत्र व पूनम, अनुपम, रूपम पुत्रियां व सोना देवी बिधवा दयानन्द पुत्र हरनारायण हर पाँच समभाग 1/144 भाग वासी नरेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र रोजन 1/4 भाग वासी
57	191// 23/1/1/2 min	चाही	निजी	0.0178	मुन्शी सिंह उर्फ सुरेश पुत्र सुलतान सिंह पुत्र रिसाल सिंह 1/3 भाग वासी श्रीमती लक्ष्मी देवी बिधवा मांगेराम पुत्र सुल्तान 1/21 भाग सतीश, योगेन्द्र पुत्रान मांगेराम पुत्र सुल्तान हर दो समभाग 1/7 भाग वासीदेह अनिल कुमार पुत्र मांगेराम पुत्र 1/12 भाग वासी जोगेन्द्र पुत्र मांगेराम पुत्र 5/84 भाग अशोक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र सुलतान सिंह 4/13 भाग श्रीमती सन्तोष बिधवा महेन्द्र सिंह पुत्र सुलतान सिंह

					1/39 भाग वासीदेह
58	205// 8/1/2 min	चाही	निजी	0.0025	श्रीमती कलावती बिधवा व सन्तोष, प्रेमलता, मीरा पुत्रियां प्यारेलाल पुत्र लेखराम हर चार समभाग रहन हिस्सा 4/5 भाग श्रीमती कलावती माता व श्रीमती आशा बिधवा व लोकेश पुत्र व उदीता, सृष्टि पुत्रियां जगदीश पुत्र प्यारेलाल हर पाँच समभाग रहन हिस्सा 1/5 भाग वासीदेह अरुणजैन पुत्र सुरेशचन्द्र जैन पुत्र वासी 437/14 अर्बन स्टेट गुडगावा मुरतहन
59	217 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0076	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
60	218 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
61	232 min	गैर मुमकिन रास्ता	सरकारी	0.0025	सैन्ट्रल गर्वनमैन्ट आराजी मतरुका बिला अलाट शुदा वासीदेह
62	354 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
63	357 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
64	359 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
65	365 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051	सिविल पंचायत देह
66	366 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051	सिविल पंचायत देह
67	423 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
68	449 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0556	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
69	490 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0126	सिविल पंचायत देह व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
70	492 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0101	सिविल पंचायत देह
<b>जोड़</b>				<b>1.4491</b>	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :					<b>फरुखनगर</b>
ग्राम का नाम :					<b>झांझरोला</b>
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	45// 18/1 min	चाही	निजी	0.0304	मीर सिंह, सन्तलाल, सुन्दर सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र टेकू हर तीन समभाग 7/16 भाग श्रीमती पवित्रा बिधवा व अभिषेक, मनीष कुमार पुत्रान व श्रीमती मोनिका पुत्री रामपाल पुत्र हरी सिंह हर चार समभाग 1/16 भाग ब्रहमप्रकाश पुत्र शौराम पुत्र टेकू 1/4 भाग अमन कुमार, पवन कुमार, रमेश कुमार पुत्रान व श्रीमती कमला देवी बिधवा बलवान सिंह पुत्र शौराम हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह

2	45// 23/2/2 min	चाही	निजी	0.0329	मीर सिंह, सन्तलाल, सुन्दर सिंह पुत्रान हरी सिंह पुत्र टेकू हर तीन समभाग 7/16 भाग श्रीमती पवित्रा बिधवा व अभिषेक, मनीष कुमार पुत्रान व श्रीमती मोनिका पुत्री रामपाल पुत्र हरी सिंह हर चार समभाग 1/16 भाग ब्रह्मप्रकाश पुत्र शौराम पुत्र टेकू 1/4 भाग अमन कुमार, पवन कुमार, रमेश कुमार पुत्रान व श्रीमती कमला देवी बिधवा बलवान सिंह पुत्र शौराम हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह
3	46// 4/1/2 min	चाही	निजी	0.0000	सुमेर सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र महीराम 11/405 भाग दलीप सिंह पुत्र व श्रीमती जयपाली, राजेश देवी पुत्रियां प्रभू पुत्र छैलू हर तीन समभाग 1/5 भाग राजपाल, जमनादास, जगदेव, रामनाथ, सतीष कुमार पुत्रान जगराम पुत्र हरलाल हर पाँच समभाग 1/7 भाग कृष्णचरन, गजराज पुत्रान मंगल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 2/15 भाग भीम सिंह, विकाश कुमार, अभय सिंह पुत्रान व श्रीमती सरोज देवी, शीला देवी, सुरेश देवी पुत्रियां मनोहर लाल पुत्र रामजी लाल हर छः समभाग 2/35 भाग श्रीमती सुमन देवी, अमन देवी पुत्रियां श्रीमती राजकौर पुत्र मंगल हर दो समभाग 1/15 भाग रोशनलाल पुत्र रामजीलाल पुत्र महीराम 1/5 भाग िकततक पुत्र 14/81 भाग वासीदेह
4	46// 4/2/2 min	चाही	निजी	0.0556	रमेश कुमार पुत्र बदलू पुत्र कुडिया 237/874 भाग गोबिन्द पुत्र रामपाल पुत्र 82/437 भाग मुकेश कुमार पुत्र बदलूराम पुत्र 473/2622 भाग श्रीमती कमला, बिमला, सन्तोष पुत्रियां भूप सिंह पुत्र दुलीचन्द्र हर तीन समभाग 473/2622 भाग श्रीमती मनोज पत्नी मुकेश कुमार पुत्र बदलू 473/2622 भाग वासीदेह
5	46// 6/2/1 min	चाही	निजी	0.0354	दलीप सिंह पुत्र प्रभू पुत्र छैलू 63/589 भाग राकेश कुमार पुत्र भयराम पुत्र 55/589 भाग चन्द्रभान, राजपाल, जगदेव, रामनाथ, सतीश कुमार पुत्रान जगराम हर पाँच समभाग 70/589 भाग सुमेर सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र महीराम 14/589 भाग सुखराम पुत्र सुमेर सिंह पुत्र रामजीलाल 104/589 भाग ओम सिंह, रामबीर पुत्रान रोशन लाल पुत्र हर दो समभाग 118/589 भाग बीरबल, गिरिराज पुत्रान जमनादास पुत्र जगराम हर दो समभाग 14/589 भाग कृष्णचरन, गजराज पुत्रान मंगल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 118/589 भाग भीम सिंह, विकाश कुमार, अभय सिंह पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामजी लाल हर तीन समभाग 33/589 भाग वासीदेह
6	46// 7/1/1 min	चाही	निजी	0.0051	दलीप सिंह पुत्र प्रभू पुत्र छैलू 63/589 भाग राकेश कुमार पुत्र भयराम पुत्र 55/589 भाग चन्द्रभान, राजपाल, जगदेव, रामनाथ, सतीश कुमार पुत्रान जगराम हर पाँच समभाग 70/589 भाग सुमेर सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र महीराम 14/589 भाग सुखराम पुत्र सुमेर सिंह पुत्र रामजीलाल 104/589 भाग ओम सिंह, रामबीर पुत्रान रोशन लाल पुत्र हर दो समभाग 118/589 भाग बीरबल, गिरिराज पुत्रान जमनादास पुत्र जगराम हर दो समभाग 14/589 भाग कृष्णचरन, गजराज पुत्रान मंगल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 118/589 भाग भीम सिंह, विकाश कुमार, अभय सिंह पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामजी लाल हर तीन समभाग 33/589 भाग वासीदेह
7	46// 15/2/2 min	चाही	निजी	0.0253	रमेश कुमार पुत्र बदलू पुत्र कुडिया 237/874 भाग गोबिन्द पुत्र रामपाल पुत्र 82/437 भाग मुकेश कुमार पुत्र बदलूराम पुत्र 473/2622 भाग श्रीमती कमला, बिमला, सन्तोष पुत्रियां भूप सिंह पुत्र दुलीचन्द्र हर तीन समभाग 473/2622 भाग श्रीमती मनोज पत्नी मुकेश कुमार पुत्र बदलू 473/2622 भाग वासीदेह
8	47// 20/1 min	चाही	निजी	0.0378	जगमाल पुत्र श्रीराम पुत्र रामप्रसाद 308/1759 भाग वासी हन्सराम, रामफल पुत्रान बुधा पुत्र नथवा हर दो समभाग 308/1759 भाग वासीदेह जगदीश चन्द, राकेश कुमार पुत्रान व श्रीमती विधा देवी पुत्री भयराम पुत्र बुधा हर तीन समभाग 384/8795 भाग वासी सन्तराम पुत्र व श्रीमती सरला, रेखा पुत्रियां राजबाला पुत्र भयराम हर तीन समभाग 26/1759 भाग मनजीत पुत्र व श्रीमती लता पुत्री रामकवार पुत्र रूडा हर दो समभाग 211/1759 भाग श्रीमती अनीता बिधवा व सुजीत कुमार, कुमार साहब पुत्रान अनिल कुमार पुत्र रामकवार हर तीन समभाग 105/1759 भाग सचिन यादव पुत्र व पूजा यादव पुत्री व श्रीमती बीना यादव बिधवा हरिश कुमार पुत्र रामकुमार हर तीन समभाग 211/3518 भाग अमित कुमार पुत्र व श्रीमती प्रीती, पूजा पुत्रियां व श्रीमती सुनिता बिधवा चान्द सिंह पुत्र भयराम हर चार समभाग 128/8795 भाग श्रीमती सन्तरा देवी बिधवा व सुरेश कुमार, दिनेश पुत्रान लक्ष्मीनारायण पुत्र भयराम हर तीन समभाग 128/8795 भाग हीरालाल, हुक्म, नाहर सिंह, अतर सिंह पुत्रान लेखराम पुत्र हर चार समभाग 1232/8795 भाग औमसिंह, सुरेन्द्र, सुभाष, सन्तलाल पुत्रान दरियाव पुत्र लेखराम हर चार समभाग 704/26385 भाग वासीदेह रामअवतार पुत्र मुख्त्यार सिंह पुत्र बुधराम 77/10554 भाग वासी सुजीत कुमार पुत्र अनिल कुमार पुत्र रामकवार पुत्र रूडा







					समभाग 9/560 भाग वासी
14	50// 13/2 min	चाही	निजी	0.0177	भीम सिंह पुत्र पतराम पुत्र खुशीराम 1/6 भाग बिरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रूपचन्द पुत्र रनजीत हर दो समभाग 1/4 भाग बीर सिंह, कृष्ण उर्फ सुभाष पुत्रान दीपचन्द पुत्र रनजीत हर तीन समभाग 3/16 भाग वसुन्धरा पुत्री लाल सिंह पुत्र दीपचन्द 1/16 भाग नरेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामेश्वर दयाल पुत्र पतराम हर दो समभाग 1/6 भाग किर्ती कुमार यादव पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र पतराम 1/6 भाग वासीदेह
15	50// 16/2 min	चाही	निजी	0.0051	भीम सिंह पुत्र पतराम पुत्र खुशीराम 1/6 भाग बिरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रूपचन्द पुत्र रनजीत हर दो समभाग 1/4 भाग बीर सिंह, कृष्ण उर्फ सुभाष पुत्रान दीपचन्द पुत्र रनजीत हर तीन समभाग 3/16 भाग वसुन्धरा पुत्री लाल सिंह पुत्र दीपचन्द 1/16 भाग नरेश कुमार, मुकेश कुमार पुत्रान रामेश्वर दयाल पुत्र पतराम हर दो समभाग 1/6 भाग किर्ती कुमार यादव पुत्र बलवन्त सिंह पुत्र पतराम 1/6 भाग वासीदेह
16	50// 24/3 min	चाही	निजी	0.0025	जगमाल सिंह, धनीराम पुत्रान मंगल सिंह पुत्र तेजराम हर दो समभाग 1/10 भाग श्रीकिशन पुत्र जगमाल सिंह पुत्र मंगल सिंह 1/80 भाग शर्मिला बिधवा व दीपान्यु, दीक्षान्त पुत्रान हंसराज पुत्र होशियार हर तीन समभाग 1/80 भाग अनिल कुमार, सतीष कुमार पुत्रान धनीराम पुत्र मंगल सिंह हर दो समभाग 1/80 भाग रामकरन, राजपाल, जसवन्त पुत्रान रामसरूप पुत्र भूपसिंह हर तीन समभाग 5/56 भाग नन्दलाल, राजपाल पुत्रान मुख्त्यार सिंह पुत्र पुरन हर दो समभाग 1/6 भाग रमेश, रवि यादव पुत्रान जियालाल पुत्र मुख्त्यार हर दो समभाग 1/24 भाग मांगेराम पुत्र लखमीचन्द पुत्र तेजराम 1/4 भाग मामन सिंह पुत्र किशनलाल पुत्र हेताराम 13/168 भाग रामसरूप पुत्र भूपसिंह पुत्र तेजराम 527/11364 भाग महेन्द्र पुत्र रामसरूप पुत्र 35/947 भाग होशियार सिंह पुत्र मंगल सिंह पुत्र तेजराम 1/36 भाग वासीदेह श्रीमती शर्मिला देवी पत्नी हंसराज पुत्र होशियार सिंह 1/45 भाग वासी मॉडल इकोनोमिक टाउनशिप लि. 1/3600 भाग वासी 11/600 भाग वासी 11/600 भाग वासी हर चार समभाग 23/900 भाग वासी 1/45 भाग चालू
<b>जोड़</b>				<b>0.3337</b>	
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम :					<b>फरुखनगर</b>
ग्राम का नाम :					<b>मुबारिकपुर</b>
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	16// 11/2 min	चाही	निजी	0.0658	सतीश पुत्र सहीराम पुत्र प्रेमराज 1/4 भाग बलवान सिंह पुत्र निम्बो देवी पुत्री अमर सिंह 1/10 भाग मुख्त्यार सिंह पुत्र व श्रीमती रामरती, राजबती, सविता पुत्रियां अमीकौर पुत्री अमर सिंह हर चार समभाग 1/10 भाग अनुपसिंह, तेज सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र अमरसिंह हर दो समभाग 2/15 भाग आशीष कुमार पुत्र दुलीचन्द पुत्र प्रेमराज 1/4 भाग भरपुर सिंह पुत्र निम्बो देवी पुत्री अमर 1/6 वासीदेह
2	16// 19/3 min	चाही	निजी	0.0101	रतीराम पुत्र सावलिया पुत्र हरदेव रहन हिस्सा 3/4 भाग रामेश्वर, भूप सिंह, रामकंवार सिंह पुत्रान जागेराम पुत्र अमर सिंह हर तीन समभाग रहन हिस्सा 3/16 भाग बीरमती बिधवा व गीता पुत्री व हरिप्रकाश पुत्र रामकंवार पुत्र जागेराम हर तीन समभाग रहन हिस्सा 1/16 भाग जागेराम पुत्र अमर सिंह पुत्र धनीराम वासीदेह मुरतहन
3	16// 20/1 min	चाही	निजी	0.0329	सतीश पुत्र सहीराम पुत्र प्रेमराज 1/4 भाग बलवान सिंह पुत्र निम्बो देवी पुत्री अमर सिंह 1/10 भाग मुख्त्यार सिंह पुत्र व श्रीमती रामरती, राजबती, सविता पुत्रियां अमीकौर पुत्री अमर सिंह हर चार समभाग 1/10 भाग अनुपसिंह, तेज सिंह पुत्रान बलवन्त सिंह पुत्र अमरसिंह हर दो समभाग 2/15 भाग आशीष कुमार पुत्र दुलीचन्द पुत्र प्रेमराज 1/4 भाग भरपुर सिंह पुत्र निम्बो देवी पुत्री अमर 1/6 भाग वासीदेह
4	16// 22/2/1 min	चाही	निजी	0.0101	अंकित कंस्ट्रक्शन कम्पनी वासी 368 सै० 15 गुरुग्राम
5	16// 22/2/2 min	चाही	निजी	0.0202	जगवन्ती पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्र धज्जाराम वासी गाव व तह बादली,झ
6	19// 2/2 min	चाही	निजी	0.0683	सुरजभान उर्फ सुरजन पुत्र भरत सिंह पुत्र चुननीलाल वासी ईस्लामपुर
7	19// 9/1 min	चाही	निजी	0.0379	मांगेराम पुत्र भरत सिंह पुत्र चुननीलाल वासी ईस्लामपुर
8	19// 18/1 min	चाही	निजी	0.0430	धर्मबीर पुत्र दयानन्द पुत्र रिशाल 1/2 भाग दयाल सिंह, सुनील कुमार पुत्रान जयलाल पुत्र चतर सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
9	19// 23/2 min	चाही	निजी	0.0151	धर्मबीर पुत्र दयानन्द पुत्र रिशाल 1/2 भाग दयाल सिंह, सुनील कुमार पुत्रान जयलाल पुत्र चतर सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह

10	35// 9/1 min	चाही	निजी	0.0051	सतीश कुमार, सुभाष चन्द पुत्रान दीवान पुत्र पन्नालाल हर दो समभाग 1/3 भाग रामकिशन उर्फ ब्रह्मप्रकाश उर्फ पन्नालाल पुत्र मोहनलाल 1/3 भाग नरेश कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्रान ऋषिराम पुत्र पन्नालाल हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह
11	35// 12/2 min	चाही	निजी	0.0051	ब्रह्मप्रकाश पुत्र श्योराम पुत्र टेकू 1/4 भाग अमन कुमार, पवन कुमार, रमेश कुमार पुत्रान व श्रीमती कमला देवी बिधवा बलवान सिंह पुत्र श्योराम हर चार समभाग 1/4 भाग मीर सिंह, सन्तलाल, सुरेन्द्र पुत्रान हरि सिंह पुत्र टेकचन्द हर तीन समभाग 3/8 भाग श्रीमती पवित्रा बिधवा व मोनिका पुत्री रामपाल पुत्र हरि सिंह हर दो समभाग 1/28 भाग मनीष पुत्र रामपाल पुत्र हरिसिंह 1/14 भाग अभिषेक पुत्र रामपाल पुत्र हरि सिंह 1/56 भाग वासीदेह
12	579 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0177	सिविल पंचायत देह
जोड़				<b>0.3313</b>	
कुल जोड़				<b>11.6552</b>	

[फा. सं. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2023

**S.O. 2665(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, number S.O. 3528(E), dated the 27th July 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 29th July 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Haryana Orbital Rail Corridor Project in the district Gurugram, in the State of Haryana;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Hindustan Times" dated the 3rd, August, 2022, and "Danik Jagran" dated the 3rd, August, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, No objections have been received;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE					
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Haryana Orbital Rail Corridor Project in the district Gurugram, in the State of Haryana.					
Name of District:			Gurugram		
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:			Farrukhnagar		
Name of Village:			Babra Bakipur		
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	35// 11min	Chahi	Private	0.0076	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram

					1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
2	35// 19 min	Chahi	Private	0.0152	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
3	35// 20min	Chahi	Private	0.1648	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
4	35// 21min	Chahi	Private	0.0683	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
5	35// 22/1 min	Chahi	Private	0.0708	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona

					Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
6	35// 22/2 min	Chahi	Private	0.0025	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Rajendra, Bir singh S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs. Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/3 share resident Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
7	36// 2/1/1 min	Chahi	Private	0.0025	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Birsingh, Rajendra S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mrs. Fulwati widow and Vijay alias Baval S/o and Mrs. Krishna, Neelam D/o Daljit S/o Munshi equal four shares 1/15 share Dharmapala S/o Ranjit S/o Ameelal 1/15 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Jagmal singh, Surajbhan S/o and Mrs. bharpai D/o manbhar D/o Ameelal equal three shares 1/15 share Mrs. shanti widow and Dharmbir S/o and Mrs. Shakuntala, Daya D/o Kehar singh S/o Ameelal equal four shares 1/30 share Mrs. santosh widow and Hoteelal S/o and Lilay, Sumanlata D/o prakash S/o Kehar singh equal four shares 1/150 share Mrs. Mukesh Devi widow and vishal S/o and sheetal D/o Ashok Kumar S/o Prakash equal three shares 1/600 share Mrs. kamla widow and Kuldeep, Yashpal S/o and Mrs Bimla, Saroj, Muni D/o Rajendra S/o Kehar singh equal six shares 1/120 share Karambir S/o and Pinki D/o and Mrs. Kamlesh widow Sajjan singh S/o Kehar equal three shares 1/120 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Satbir, Dharmbir, Jaswant, Ved Prakash S/o Mrs. Kamla Devi, sundari devi D/o Mouharkaur D/o Ameelal equal six shares 1/15 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh, S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/120 share Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
8	36// 2/1/2 min	Chahi	Private	0.0076	Mrs. Sarbati W/o pyarelal S/o Molhad 1/27 share Birsingh, Rajendra S/o Pyare Lal S/o Molhad equal two shares 2/27 share Phoolwati M/o Surjit S/o Roshan 1/9 share Dinesh S/o Ajit singh S/o Hansram 1/36 share Mrs. Fulwati widow and Vijay alias Baval S/o and Mrs. Krishna, Neelam D/o Daljit S/o Munshi equal four shares 1/15 share Dharmapala S/o Ranjit S/o Ameelal 1/15 share Mahipal, Munesh Kumar S/o ishwar S/o Sahabram equal two shares 7/48 share Mrs. Bedorani d/o and Mrs. Roshni Devi widow ishwar singh S/o Sahabram equal two shares 1/48 share Jagmal singh, Surajbhan S/o and Mrs. bharpai D/o manbhar D/o Ameelal equal three shares 1/15 share Mrs. shanti widow and Dharmbir S/o and

					Mrs. Shakuntala, Daya D/o Kehar singh S/o Ameelal equal four shares 1/30 share Mrs. santosh widow and Hoteelal S/o and Lilay, Sumanlata D/o prakash S/o Kehar singh equal four shares 1/150 share Mrs. Mukesh Devi widow and vishal S/o and sheetal D/o Ashok Kumar S/o Prakash equal three shares 1/600 share Mrs. kamla widow and Kuldeep, Yashpal S/o and Mrs Bimla, Saroj, Munni D/o Rajendra S/o Kehar singh equal six shares 1/120 share Karambir S/o and Pinki D/o and Mrs. Kamlesh widow Sajjan singh S/o Kehar equal three shares 1/120 share Mrs. Chandkaur M/o and Mrs Bala Devi widow and Rajpal, Vijaypal, Jayvir S/o Dharam singh S/o Sahabram equal five shares 1/6 share Satbir, Dharmbir, Jaswant, Ved Prakash S/o Mrs. Kamla Devi, sundari devi D/o Mouharkaur D/o Ameelal equal six shares 1/15 share Mrs. shona Devi widow Ajit singh, S/o Hansram 1/12 share Wasideh Ravindra S/o Pradhan Singh, S/o Kehar singh 1/120 share Baslambi resident tehsil Farrukhnagar
9	93/3 min	Gair Mumkin	Private and Government	0.0126	Civil Panchayat and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
<b>Sub Total</b>				<b>0.3519</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:</b>					<b>Farrukhnagar</b>
<b>Name of Village:</b>					<b>Jhund Sarai Abad</b>
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	14// 24/1 min	Chahi	Government	0.1897	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2013
2	15// 3 min	Chahi	Government	0.1189	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2013
3	15// 4/1 min	Chahi	Government	0.2125	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2013
4	15// 7/2 min	Chahi	Government	0.3159	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2013
5	15// 8 min	Chahi	Government	0.0152	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2014
6	15// 9 min	Chahi	Government	0.0531	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2015
7	15// 14/1 min	Chahi	Government	0.3490	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2016
8	15// 15/1 min	Chahi	Government	0.0304	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2017
9	15// 16/2 min	Chahi	Government	0.1622	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2018
10	15// 17 min	Chahi	Government	0.2124	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. Via Award No. 30 Dated. 08.02.2019
11	26 Min	Gair Mumkin Road	Private	0.0581	Gram Panchayat
<b>Sub Total</b>				<b>1.7174</b>	

Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:					Farrukhnagar
Name of Village:					Patli Hajipur
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	57// 5/1/2 min	Chahi	Private	0.0252	Krishan, Sanjeev S/o Ramchander S/o Sher Singh equal two shares 4/9 share Wasideh
2	57// 6/1 min	Chahi	Private	0.0304	Krishan, Sanjeev S/o Ramchander S/o Sher Singh equal two shares 4/9 share Wasideh
3	57// 15/1/2 min	Chahi	Private	0.0051	Subhash, Ajit S/o Bhikhu S/o Sultan equal two shares 1/2 share Gaurav Dhankad S/o and Mrs. Geeta D/o and Kamlesh Dhankad widow Jayaprakash S/o Bhikhu equal three shares 1/4 share Sudhir Dhankhad, Rahul Dhankad S/o Baljit Singh S/o equal two shares 1/4 share Wasideh
4	57// 15/2/2 min	Chahi	Private	0.0379	Subhash, Ajit S/o Bhikhu S/o Sultan equal two shares 1/2 share Gaurav Dhankad S/o and Mrs. Geeta D/o and Kamlesh Dhankad widow Jayaprakash S/o Bhikhu equal three shares 1/4 share Sudhir Dhankhad, Rahul Dhankad S/o Baljit Singh S/o equal two shares 1/4 share Wasideh
5	57// 16/1 min	Chahi	Private	0.0354	Babulal S/o Raghunath S/o Ramjilal 88/211 Share Lalchand, Balkishan, Davendra Kumar, Harish Kumar S/o Kaliram S/o Raghunath Every Four Equal Shares 88/211 Share Vedprakash S/o Shrikishan S/o Raghunath 23/211 Share Pravin S/o Shreekishan S/o Raghunath 12/211 Share Wasideh
6	57// 25/2/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0051	Jagdishchandra, Parasram, Brajkishor S/o Manoharlal Urf Kalu S/o Shivdatt Every Three Equal Shares 17/120 Share Kaliram, Shrikishan, Babulal S/o Raghunath S/o Every Three Equal Shares 223/900 Share Lekhram S/o or Kapoori Devi D/o Raghunath S/o Every Two Equal Shares 17/900 Share Ishwar Singh S/o Hardhyan D/o Prabhu 1/20 Share Ramkuvar S/o ShreeRam Urf Bhaisiya S/o Prabhu Dyal 281/900 Share Smt. Santosh Devi Widdow or Satish Kumar, Hitesh Kumar S/o Yadram S/o Manohar Lal Every Three Equal Shares 17/360 Share Ramesh Chand, Naresh, Pooranmal, Tekchand, Subhash, Hiralal S/o Ramkuvar S/o ShreeRam Urf Bhaisiya Every Six Equal Shares 41/225 Share
7	58// 4/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0607	Gram Panchayat
8	58// 7/1/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0152	Gram Panchayat
9	58// 7/2/1 min	Chahi	Private	0.0252	M/s P.A. C. L. Insurance Service Ltd. A-4/445 Paschim Vihar New Delhi 1/3 share M/s D.P.S.E. Finance Ltd Deepak K. Sahni S/o R. C. Sahni 2/3 share Wasideh
10	58// 14/2 min	Chahi	Private	0.0278	M/s P.A. C. L. Insurance Service Ltd. A-4/445 Paschim Vihar New Delhi 1/3 share M/s D.P.S.E. Finance Ltd Deepak K. Sahni S/o R. C. Sahni 2/3 share Wasideh
11	58// 15 min	Chahi	Private	0.0177	M/s P.A. C. L. Insurance Service Ltd. A-4/445 Paschim Vihar New Delhi 1/3 share M/s D.P.S.E. Finance Ltd Deepak K. Sahni S/o R. C. Sahni 2/3 share Wasideh
12	58// 16/1 min	Chahi	Private	0.0405	M/s P.A. C. L. Insurance Service Ltd. A-4/445 Paschim Vihar New Delhi 1/3 share M/s D.P.S.E. Finance Ltd Deepak K. Sahni S/o R. C. Sahni 2/3 share Wasideh

13	58// 25/1/2 min	Chahi	Private	0.0405	M / s P.A. C. L. Insurance Service Ltd. A-4/445 Paschim Vihar New Delhi S/o malik kabza Ramchander S/o Sher Singh S/o Gangaram Wasideh
14	59// 3/2 min	Chahi	Private	0.0607	Balwan Singh, Shri Krishna, Dharmabir, Mahavir S/o Hukmchand S/o Surjan equal four shares Malakan kabja Jayanarayan S/o Hari Singh S/o Amilal Wasideh Hakdar Shamalat
15	59// 7 min	Chahi	Private	0.0125	M/s A. G. Securities Pvt. Ltd. Bajriye D.K. Sharma S/o S.N. Sharma S/o 2/3 share Rajbir S/o and Sheela, Premwati D/o Bhalia W/o Jageram equal three shares 1/5 share Vinod Kumar, Vijay Kumar, Vikram Singh, Vivekanand S/o Subira D/o Bhalia equal four shares 1/15 share Rakesh Kumar , Devinder Kumar S/o Dayanand S/o Shiba equal two shares 1/15 share Wasideh
16	59// 8/1 min	Chahi	Private	0.0278	Mai. I.J. Securities Pvt. Ltd. Gravel D.K. Sharma S/o A. An. Sharma S/o Wasideh
17	59// 14/2 min	Chahi	Private	0.0531	M/s A. G. Securities Pvt. Ltd. Bajriye D.K. Sharma S/o S.N. Sharma S/o 2/3 share Rajbir S/o and Sheela, Premwati D/o Bhalia W/o Jageram equal three shares 1/5 share Vinod Kumar, Vijay Kumar, Vikram Singh, Vivekanand S/o Subira D/o Bhalia equal four shares 1/15 share Rakesh Kumar , Devinder Kumar S/o Dayanand S/o Shiba equal two shares 1/15 share Wasideh
18	59// 17/1 min	Gair Mumkin/ Banjar Kadeem	Private	0.0556	Gram Panchayat
19	59// 24/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0607	Gram Panchayat
20	60// 2/2 min	Chahi	Private	0.0607	Kamal Singh, Sahab Singh, Roshan Singh, Ramniwas, Shrinivas, Shri Bhagwan, Krishna Kumar S/o and Mrs. Kamlesh Devi, Suresh Devi, Sudesh Devi, D/o and Bharto Devi widow Shri Sule Chand S/o Charan Singh equal eleven shares Malkan kabja Ram Meher, Jagdish , Gugan Singh, Om Prakash, Ajit S/o Parasram alias Parsa S/o Gopal equal five shares Wasideh Hakdar Shamlat
21	60// 3/1 min	Gair Mumkin	Government	0.0101	Kamal Singh, Sahab Singh, Roshan Singh, Ramniwas, Shrinivas, Shri Bhagwan, Krishna Kumar S/o and Mrs. Kamlesh Devi, Suresh Devi, Sudesh Devi, D/o and Bharto Devi widow Shri Sule Chand S/o Charan Singh equal eleven shares Malkan kabja Ram Meher, Jagdish , Gugan Singh, Om Prakash, Ajit S/o Parasram alias Parsa S/o Gopal equal five shares Wasideh Hakdar Shamlat
22	60// 4/2 min	Gair Mumkin johar	Private	0.0076	Panchayat Deh
23	60// 8/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0076	Mrs. Gayatri Arora W/o Surendra Kumar S/o Sukhdev 2/3 share Lakshya Arora, Daksha Aroda S/o Surendra Kumar S/o Sukhdev equal two shares 1/3 share Wasideh
24	60// 8/2/2 min	Chahi/ Gair Mumkin	Government	0.0177	provincial government
25	60// 8/3 min	Chahi	Private	0.0177	Kamal Singh, Sahab Singh, Roshan Singh, Ramniwas, Shrinivas, Shri Bhagwan, Krishna Kumar S/o and Mrs. Kamlesh Devi, Suresh Devi, Sudesh Devi, D/o and Bharto Devi widow Shri Sule Chand S/o Charan Singh equal eleven shares Malkan kabja



					Ram Meher, Jagdish , Gugan Singh, Om Prakash, Ajit S/o Parasram alias Parsa S/o Gopal equal five shares Wasideh Hakdar Shamlat
26	60// 9/2/1 min	Chahi	Private	0.0177	Sulechand S/o Charan Singh S/o Rammehar Malik Kabja Wasi mahipal pur Wasi Delhi Rammehar, Jagdish, Gugan Singh, Omprakash, Ajit S/o Parasram Urf Parsa S/o Gopal Every Five Equal Wasideh Hakdar Shamlat
27	60// 13/1/1 min	Banjar Kadeem/ Gair Mumkin	Private and Government	0.0809	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. And Provincial Government and Balwan Singh, Srikrishna, Dharmbir, Mahavir S/o Hukam Chand S/o Surjan Singh equal four shares Wasideh
28	60// 18/1 min	Chahi	Private	0.0556	Balwan Singh, ShriKrishan, Mahavir, Dharambir S/o Hukmchand S/o equal four shares residents Khandsa
29	60// 23/2 min	Chahi	Private	0.0607	Balwan Singh, Shri Krishna, Dharmabir, Mahavir S/o Hukmchand S/o Surjan equal four shares Malakan kabja Jayanarayan S/o Hari Singh S/o Amilal Wasideh Hakdar Shamalat
30	74// 24/2 min	Chahi	Private	0.0101	Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Malakan kabza Omprakash S/o Ramaskap S/o Chandanlal 1/4 share malik kabza Vedprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal S/o equal four shares 1/4 share Malakan kabza Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandan Lal equal two shares 1/4 share Malakan kabza Chandagi adoped S/o Khushali S/o wasideh hakdar shamlat
31	74// 25 min	Chahi	Private	0.0177	Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Malakan kabza Omprakash S/o Ramaskap S/o Chandanlal 1/4 share malik kabza Vedprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal S/o equal four shares 1/4 share Malakan kabza Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandan Lal equal two shares 1/4 share Malakan kabza Chandagi adoped S/o Khushali S/o wasideh hakdar shamlat
32	79// 5/2 min	Chahi	Private	0.0126	Ray Singh, Ajit Singh, Bane Singh S/o Chhoturam S/o Budhram Every Three Equal Shares 1/2 Share Atar Singh, Devendra Singh, Ajay Singh S/o Budhram Every Three Equal Shares 1/2 Share Wasideh
33	80// 5/2 min	Chahi	Private	0.0708	Om Prakash S/o Ramsaroop S/o Chandanlal 1/4 share Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Vedprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal equal four shares 1/4 share Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Wasideh
34	80// 6/1 min	Chahi	Private	0.0708	Om Prakash S/o Ramsaroop S/o Chandanlal 1/4 share Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Vedprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal equal four shares 1/4 share Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Wasideh

35	80// 15/2 min	Chahi	Private	0.0708	Om Prakash S/o Ramsaroop S/o Chandanlal 1/4 share Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Vedprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal equal four shares 1/4 share Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Wasideh
36	80// 16/1/1 min	Chahi	Private	0.0506	Om Prakash S/o Ram Sarup S/o Chandan Lal 1/4 share Devinder Kumar, Rajendra Prasad S/o Sher Singh S/o Chandanlal equal two shares 1/4 share Vedaprakash, Vijaykumar, Surendra Kumar, Mahendra Kumar S/o Deepchand S/o Chandanlal equal four shares 1/4 share Satish Kumar Sharma, Yogesh Sharma S/o Dayaram S/o Chandan Lal equal two shares 1/4 share Wasideh
37	80// 16/2/1 min	Chahi	Private	0.0202	Azad Singh, Jagdish Singh S/o Sarup Singh S/o Natthu equal two shares 1/2 share Rajpal S/o Risal Singh S/o Natthu 1/4 share Praveen S/o Rajendra S/o Sarup 1/4 share Wasideh
38	80// 25/2 min	Chahi	Private	0.0733	Bijender S/o Ramsingh S/o Rampat wasideh
39	81// 21/1/2 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Panchayat Deh
40	82// 1/1/1 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0126	Panchayat Deh
41	82// 1/2 min	Chahi	Private	0.0405	Somdat, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar S/o and Mrs. Poonam D/o and Mrs. Ishwanti widow Rameshwar Chandr S/o equal five shares 1/5 share Khemram, Dharambir, Ajaypal S/o Ramdhan S/o Jeetram equal three shares 3/5 share Gorav Kumar S/o Shripal S/o Ramdhan 1 / 5 share wasideh
42	82// 10/1/1 min	Chahi	Private	0.0607	Somdat, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar S/o and Mrs. Poonam D/o and Mrs. Ishwanti widow Rameshwar Chandr S/o equal five shares 1/5 share Khemram, Dharambir, Ajaypal S/o Ramdhan S/o Jeetram equal three shares 3/5 share Gorav Kumar S/o Shripal S/o Ramdhan 1 / 5 share wasideh
43	82// 11/2/2 min	Chahi	Private	0.0581	Somdat, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar S/o and Mrs. Poonam D/o and Mrs. Ishwanti widow Rameshwar Chandr S/o equal five shares 1/5 share Khemram, Dharambir, Ajaypal S/o Ramdhan S/o Jeetram equal three shares 3/5 share Gorav Kumar S/o Shripal S/o Ramdhan 1 / 5 share wasideh
44	82// 11/3/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0025	Panchayat Deh
45	82// 20/1 min	Chahi	Private	0.0607	Mrs. Punam W/o Krishna Kumar S/o Satpal Malik kabza resident Dhanavas Dharampal, Rajpal, Surajbhan S/o Khushiram S/o Kishandatt equal three shares resident Hakdar Shamlat
46	82// 21/2 min	Chahi	Private	0.0758	Raj Pal, Surajbhan S/o Khushiram S/o Kishandatt equal two shares 2/3 share Ravi Prakash, Sunil Kumar S/o Dharampal S/o Khushiram equal two shares 1/3 share Wasideh
47	83// 1/2 min	Chahi	Private	0.0506	Raj Pal, Soorajbhan S/o Khushiram S/o kishandatt Every Two Equal Shares 2/3 Share Smt. Meena Kumari W/o Surendra Singh S/o Ramkishan 9/40 Share Ramkishan, Sunil Kumar S/o Dharampal S/o Khushiram Every Two Equal Shares 13/120 Share Wasideh
48	83// 2 min	Chahi	Private	0.0304	Raj Pal, Surajbhan S/o Khushiram S/o Kishandatt equal two shares 2/3 share Mrs. Meena Kumari W/o

					Surendra Singh S/o Ramkishan 37/225 share Ravi Prakash, Sunil Kumar S/o Dharampal S/o Khushiram equal two shares 38/225 share Wasideh
49	83// 9/1 min	Chahi	Private	0.0025	Shivjeet, Navjeet S/o Ishwar Singh S/o equal two shares resident New Delhi
50	83// 9/3/1 min	Chahi	Private	0.0708	Shivjeet, Navjeet S/o Ishwar Singh S/o equal two shares resident New Delhi
51	83// 10/1 min	Chahi	Private	0.0000	Shivjeet, Navjeet S/o Ishwar Singh S/o equal two shares resident New Delhi
52	83// 12/2 min	Chahi	Private	0.0708	Mulchand, Ramkaran, Chandroop S/o Mir Singh S/o Nandlal equal three shares 3/4 share Mukesh, Paramjit S/o Ramphal S/o Mir Singh equal two shares 1/4 share
53	83// 19/1 min	Chahi	Private	0.0708	Dharampal, Satpal, Jaspal S/o Ramchandra S/o Nandlal equal three shares wasideh
54	83// 22/2 min	Chahi	Private	0.0658	Kamal Singh, Sahab Singh, Roshan Singh, Ramniwas, Shrinivas, Shri Bhagwan, Krishna Kumar S/o and Mrs. Kamlesh Devi, Suresh Devi, Sudesh Devi, D/o and Bharto Devi widow Shri Sule Chand S/o Charan Singh equal eleven shares Malkan kabja Ram Meher, Jagdish, Gagan Singh, Om Prakash, Ajit S/o Parasram alias Parsa S/o Gopal equal five shares Wasideh Hakdar Shamlat
55	95// 20 min	Chahi	Private	0.0354	Babulal S/o Rugnath S/o Ramjilal 88/211 share Lalchand, Balkishan, Davendra Kumar, Harish Kumar S/o Kaliram S/o Rugnath equal four shares 88/211 share Vedprakash S/o Sreekishan S/o Rugnath 23/211 share Praveen S/o Shrikishan S/o Rugnath 639/66887 share Mrs. Malti Sharma W/o Praveen Kumar S/o Shrikishan 15/317 share Wasideh
56	95// 21/2 min	Chahi	Private	0.0784	Babulal S/o Rugnath S/o Ramjilal 88/211 share Lalchand, Balkishan, Davendra Kumar, Harish Kumar S/o Kaliram S/o Rugnath equal four shares 88/211 share Vedprakash S/o Sreekishan S/o Rugnath 23/211 share Praveen S/o Shrikishan S/o Rugnath 639/66887 share Mrs. Malti Sharma W/o Praveen Kumar S/o Shrikishan 15/317 share Wasideh
57	116// 1/2 min	Chahi	Private	0.1112	Babulal S/o Rugnath S/o Ramjilal 88/211 share Lalchand, Balkishan, Davendra Kumar, Harish Kumar S/o Kaliram S/o Rugnath equal four shares 88/211 share Vedprakash S/o Sreekishan S/o Rugnath 23/211 share Praveen S/o Shrikishan S/o Rugnath 12/211 share Wasideh
58	118// 18/1 min	Chahi	Private	0.0404	Ram Nivas, Omprakash S/o Prabhu Dayal S/o Laxmi Narayan Every Two Share Wasideh
59	118// 23 min	Gair Mumkin	Private	0.1315	Panchayat Deh
60	119// 3 min	Chahi	Government	0.1315	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
61	119// 8 min	Chahi	Government	0.1315	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
62	119// 13 min	Chahi	Government	0.1315	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
63	119// 18 min	Chahi	Government	0.1365	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
64	119// 23 min	Chahi	Government	0.1416	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
65	121// 15/2/1 min	Chahi	Government	0.0025	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.

66	128// 2/2 min	Chahi	Government	0.0025	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
67	130// 3/2 min	Chahi	Government	0.1416	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
68	130// 8 min	Chahi	Government	0.1416	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
69	130// 13 min	Chahi/ Gair Mumkin	Government	0.1416	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
70	130// 18 min	Chahi/ Gair Mumkin	Government	0.1416	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
71	130// 23 min	Chahi	Government	0.1568	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
72	131// 3 min	Chahi / Gair Mumkin	Government	0.1618	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
73	131// 8 min	Chahi	Government	0.1618	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
74	131// 12/1/2 min	Chahi	Government	0.0076	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
75	131// 13 min	Chahi	Government	0.1618	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
76	131// 15/1/2/1 min	Chahi	Government	0.0025	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
77	131// 18/1 min	Chahi	Government	0.0809	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
78	131// 22/2 min	Chahi	Government	0.0556	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
79	132// 2/2 min	Chahi	Government	0.0658	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
80	132// 9/1 min	Chahi	Government	0.0582	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
81	132// 12/2 min	Chahi	Government	0.0607	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
82	132// 18/3 min	Gair Mumkin	Government	0.0940	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
83	132// 22/2 min	Chahi	Government	0.0177	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
84	135// 2/1 min	Chahi	Government	0.0556	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
85	135// 2/2/2 min	Chahi	Government	0.0626	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
86	135// 3/1 min	Chahi	Government	0.1062	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
87	135// 8/2 min	Chahi	Government	0.1012	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
88	135// 9/1 min	Chahi	Government	0.0910	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
89	135// 12/2 min	Chahi	Government	0.1012	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
90	135// 13/1 min	Chahi	Government	0.1012	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
91	135// 18/2 min	Chahi	Government	0.0860	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
92	135// 19/1 min	Chahi	Government	0.0910	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.

93	135// 22/2 min	Chahi	Government	0.0860	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
94	135// 23/2/1 min	Chahi	Government	0.0809	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
95	155// 2/2 min	Chahi	Government	0.0758	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
96	155// 3/1 min	Chahi	Government	0.0860	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
97	155// 8/2 min	Chahi	Government	0.0961	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
98	155// 9/1 min	Chahi	Government	0.0607	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
99	155// 12/2 min	Chahi	Government	0.0405	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
100	155// 13/1 min	Chahi	Government	0.1062	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
101	155// 18/2 min	Chahi	Government	0.1112	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
102	155// 19/1 min	Chahi	Government	0.0354	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
103	155// 22/2 min	Chahi	Government	0.0202	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
104	155// 23 min	Chahi	Government	0.0329	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
105	156// 2/2 min	Chahi	Government	0.0226	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
106	162 min	Gair Mumkin	Government	0.0254	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
107	159 min	Gair Mumkin	Government	0.0253	provincial government and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
108	178/2/2 min	Gair Mumkin	Private and Government	0.0101	Panchayat Deh and provincial government and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
109	183 min	Gair Mumkin	Private and Government	0.0076	Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
110	156 min	Gair Mumkin Rasta	Private and Government	0.0405	Panchayat Deh and provincial government
<b>Sub Total</b>				<b>6.5309</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:</b>					<b>Farrukhnagar</b>
<b>Name of Village:</b>					<b>Khentawas</b>
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	28// 3/2 min	Chahi	Private	0.0456	Sardanand, Deshraj S/o BrijLal S/o Bakhtavar equal two shares 1/2 share Sunita D/o Dharmapal S/o BrijLal 1/8 share Mrs. Geeta widow ShreeBhagwan S/o Santraj 1/36 share Jaybhagwan S/o Santraj S/o BrijLal 1/8 share Kapil, Ashish S/o ShreeBhagwan S/o Santraj equal two shares 7/72 share Rekha Yadav D/o Dharmapal S/o Brijlal 1/8 share Wasideh

2	28// 8/1 min	Chahi	Private	0.0556	Naharsingh S/o Ramsingh S/o Richhpal Wasideh
3	28// 13/2 min	Chahi	Private	0.0658	Naharsingh S/o Ramsingh S/o Richhpal Wasideh
4	28// 17 min	Chahi	Private	0.0228	Naharsingh S/o Ramsingh S/o Richhpal Wasideh
5	28// 18/1 min	Chahi	Private	0.0481	Naharsingh S/o Ram Singh S/o Richhpal 3/4 share Mrs. Kamaladevi widow Ramsingh S/o Richhpal 1/8 share Sushila, Lakshmi d/o and Mrs. Savatri widow Umed S/o Ramsingh equal three shares 1/8 share Wasideh
6	28// 24 min	Chahi	Private	0.0051	Naharsingh S/o Ram Singh S/o Richhpal 3/4 share Mrs. Kamaladevi widow Ramsingh S/o Richhpal 1/8 share Sushila, Lakshmi d/o and Mrs. Savatri widow Umed S/o Ramsingh equal three shares 1/8 share Wasideh
7	24// 2/2/2 min	Chahi	Private	0.0202	Charan Singh S/o and Mina D/o Sumersingh S/o kanhaiyaalaal equal two shares 1/4 share Premjitsingh, Ajitsingh, Satbirsingh S/o Sumersingh S/o kanhaiyaalaal equal three shares 3/4 share Wasideh
8	24// 9/1 min	Chahi	Private	0.0278	Charan Singh S/o and Mina D/o Sumersingh S/o kanhaiyaalaal equal two shares 1/4 share Premjitsingh, Ajitsingh, Satbirsingh S/o Sumersingh S/o kanhaiyaalaal equal three shares 3/4 share Wasideh
9	24// 12/2/2 min	Chahi	Private	0.0202	Sardanand, Deshraj S/o BrijLal S/o Bakhtavar equal two shares 1/2 share Sunita D/o Dharmapal S/o BrijLal 1/8 share Mrs. Geeta widow ShreeBhagwan S/o Santraj 1/36 share Jaybhagwan S/o Santraj S/o BrijLal 1/8 share Kapil, Ashish S/o ShreeBhagwan S/o Santraj equal two shares 7/72 share Rekha Yadav D/o Dharmapal S/o Brijljal 1/8 share Wasideh
10	24// 18 min	Chahi/ Gair Mumkin	Private	0.0177	Sardanand, Deshraj S/o BrijLal S/o Bakhtavar equal two shares 1/2 share Sunita D/o Dharmapal S/o BrijLal 1/8 share Mrs. Geeta widow ShreeBhagwan S/o Santraj 1/36 share Jaybhagwan S/o Santraj S/o BrijLal 1/8 share Kapil, Ashish S/o ShreeBhagwan S/o Santraj equal two shares 7/72 share Rekha Yadav D/o Dharmapal S/o Brijljal 1/8 share Wasideh
11	24// 19/1/1 min	Chahi	Private	0.0227	Sardanand, Deshraj S/o BrijLal S/o Bakhtavar equal two shares 1/2 share Sunita D/o Dharmapal S/o BrijLal 1/8 share Mrs. Geeta widow ShreeBhagwan S/o Santraj 1/36 share Jaybhagwan S/o Santraj S/o BrijLal 1/8 share Kapil, Ashish S/o ShreeBhagwan S/o Santraj equal two shares 7/72 share Rekha Yadav D/o Dharmapal S/o Brijljal 1/8 share Wasideh
12	24// 23/2 min	Chahi	Private	0.0405	Sardanand, Deshraj S/o BrijLal S/o Bakhtavar equal two shares 1/2 share Sunita D/o Dharmapal S/o BrijLal 1/8 share Mrs. Geeta widow ShreeBhagwan S/o Santraj 1/36 share Jaybhagwan S/o Santraj S/o BrijLal 1/8 share Kapil, Ashish S/o ShreeBhagwan S/o Santraj equal two shares 7/72 share Rekha Yadav D/o Dharmapal S/o Brijljal 1/8 share Wasideh
13	73/3 min	Gair Mumkin	Government	0.0152	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. and Haryana Government
<b>Sub Total</b>				<b>0.4073</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:</b>					<b>Farrukhnagar</b>
<b>Name of Village:</b>					<b>Saidpur Mohammadpur</b>
<b>Sl. No.</b>	<b>Survey Number Rect. No. / Field No.</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Land Area in Hectares</b>	<b>Name of the Land Owner/ Interested perS/os</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	34// 25/2 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0253	Panchayat deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
2	38// 2/2 min	Chahi	Private	0.0025	Harichand S/o Chandgiram S/o Devisahay 1/2 share Jayaprakash, Shivprakash S/o Ramchandrar S/o Chandgi equal two shares 1/3 share Shiv Prakash S/o Ramchander S/o Chandgi 1/6 share Wasideh
3	41// 2/2 min	Chahi	Private	0.0304	Smt Shyama Devi Widow Ramesh Chand S/o Jayadayal 1694/31485 share Mrs Suman, Manju D/o

					Ramesh Chand S/o Jayadaya equal two shares 374/1290885 share Anil, Sunil S/o Ramesh Chand S/o Jayadaya equal two shares 277442/1290885 share Subhash Kumar, Shashibhan, Manoj S/o Om Prakash S/o Jaidaya equal three shares 1/3 share Mahender Kumar S/o Deegharam S/o Jaidaya 2504/6297 share Wasideh
4	41// 9/1/1 min	Chahi	Private	0.0229	Dharachand S/o Bhimkaran S/o Devisahay wasideh
5	41// 9/2/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0051	Madanpal, Vishnudatt S/o Lalchand S/o equal two shares wasideh
6	41// 12/2 min	Chahi	Private	0.0252	Dharachand S/o Bhimkaran S/o Devisahay wasideh
7	41// 19/1 min	Chahi	Private	0.0202	Harichand S/o Chandgiram S/o Devisahay 1/2 share Jayaprakash, Shivprakash S/o Ramchand S/o Chandgi equal two shares 1/3 share Shiv Prakash S/o Ramchander S/o Chandgi 1/6 share Wasideh
8	41// 22/2 min	Chahi	Private	0.0152	Harichand S/o Chandgiram S/o Devisahay 1/2 share Jayaprakash, Shivprakash S/o Ramchand S/o Chandgi equal two shares 1/3 share Shiv Prakash S/o Ramchander S/o Chandgi 1/6 share Wasideh
9	42// 1/2 min	Chahi	Private	0.0304	Lalsingh S/o Prem S/o Dhari 1/3 share Punit S/o and Nikita Yadav D/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan equal two shares 2/45 share Ramesh, Rajesh Kumar, Narendra, Harindra Singh S/o Ramanarayan S/o Ramprasad equal four shares 1/3 share Puneet S/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan 1/15 share Sajjan Singh, Manoj Kumar S/o Shyonarayan S/o Ram Prasad equal two shares 2/9 share Wasideh
10	42// 10/1 min	Chahi	Private	0.0304	Lalsingh S/o Prem S/o Dhari 1/3 share Punit S/o and Nikita Yadav D/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan equal two shares 2/45 share Ramesh, Rajesh Kumar, Narendra, Harindra Singh S/o Ramanarayan S/o Ramprasad equal four shares 1/3 share Puneet S/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan 1/15 share Sajjan Singh, Manoj Kumar S/o Shyonarayan S/o Ram Prasad equal two shares 2/9 share Wasideh
11	42// 11/2 min	Chahi	Private	0.0202	Lalsingh S/o Prem S/o Dhari 1/3 share Punit S/o and Nikita Yadav D/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan equal two shares 2/45 share Ramesh, Rajesh Kumar, Narendra, Harindra Singh S/o Ramanarayan S/o Ramprasad equal four shares 1/3 share Puneet S/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan 1/15 share Sajjan Singh, Manoj Kumar S/o Shyonarayan S/o Ram Prasad equal two shares 2/9 share Wasideh
12	42// 12 min	Chahi	Private	0.0101	Lalsingh S/o Prem S/o Dhari 1/3 share Punit S/o and Nikita Yadav D/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan equal two shares 2/45 share Ramesh, Rajesh Kumar, Narendra, Harindra Singh S/o Ramanarayan S/o Ramprasad equal four shares 1/3 share Puneet S/o Suresh Kumar S/o Shyonarayan 1/15 share Sajjan Singh, Manoj Kumar S/o Shyonarayan S/o Ram Prasad equal two shares 2/9 share Wasideh
13	42// 17 min	Chahi	Private	0.0025	Shriniwas yadav S/o Dharampal S/o Ramjilal wasideh
14	42// 19/1 min	Chahi	Private	0.0304	Smt Shyama Devi Widow Ramesh Chand S/o Jayadaya 1694/31485 share Mrs Suman, Manju D/o Ramesh Chand S/o Jayadaya equal two shares 374/1290885 share Anil, Sunil S/o Ramesh Chand S/o Jayadaya equal two shares 277442/1290885 share Subhash Kumar, Shashibhan, Manoj S/o Om Prakash S/o Jaidaya equal three shares 1/3 share Mahender Kumar S/o Deegharam S/o Jaidaya 2504/6297 share Wasideh

15	42// 22/2 min	Chahi	Private	0.0304	Smt Shyama Devi Widow Ramesh Chand S/o Jayadayal 1694/31485 share Mrs Suman, Manju D/o Ramesh Chand S/o Jayadayal equal two shares 374/1290885 share Anil, Sunil S/o Ramesh Chand S/o Jayadayal equal two shares 277442/1290885 share Subhash Kumar, Shashibhan, Manoj S/o Om Prakash S/o Jaidayal equal three shares 1/3 share Mahender Kumar S/o Deegharam S/o Jaidayal 2504/6297 share Wasideh
16	44// 3/1 min	Chahi	Private	0.0253	Ramkumar S/o Hariram S/o Dataram wasideh
17	44// 8/2 min	Chahi	Private	0.0025	Ramkumar S/o Hariram S/o Dataram wasideh
18	44// 9/1 min	Chahi	Private	0.0076	Ramkumar S/o Hariram S/o Dataram wasideh
19	45// 1/1/2 min	Chahi	Private	0.0202	Shamsher Singh, Anoop Singh, Kartarsingh S/o Raghbir Singh S/o Mangal equal three shares wasideh
20	45// 10/1/2 min	Chahi	Private	0.0076	Shamsher Singh, Anoop Singh, Kartarsingh S/o Raghbir Singh S/o Mangal equal three shares wasideh
21	45// 10/2/1 min	Chahi	Private	0.0152	Ramavatar S/o, Mamchand S/o, Dhanna 139/1872, share Mrs. Rajesh, Babli D/o, and Kitaabo, widow, shaadiRam S/o, equal three shares 1/24 share Mrs. Kamlesh D/o and Krishna widow Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/30 share Bastiram S/o Mamchand S/o Dhanna 1837/19760 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o 3041/59280 share Smt Santosh widow Ajit Singh S/o Mamchand 31/1710 share Naresh Kumar, Ashok Kumar, Jagdev Singh, Dinesh Kumar, Shiv Kumar, Raj Kumar S/o Gulab Singh S/o Ramswarup equal six shares 1/3 share Lokram, Deendayal, Hukam Singh S/o Lalchand S/o equal three shares 1/4 share Chetananand, Anil Kumar S/o Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/20 share Ram Avatar S/o Mamchand S/o Dhanna 103/5616 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o Mamchand 103/5616 share Munesh Kumar S/o Bastiram S/o Mamchand 103/5616 share Wasideh
22	45// 11/2 min	Chahi	Private	0.0252	Ramavatar S/o, Mamchand S/o, Dhanna 139/1872, share Mrs. Rajesh, Babli D/o, and Kitaabo, widow, shaadiRam S/o, equal three shares 1/24 share Mrs. Kamlesh D/o and Krishna widow Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/30 share Bastiram S/o Mamchand S/o Dhanna 1837/19760 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o 3041/59280 share Smt Santosh widow Ajit Singh S/o Mamchand 31/1710 share Naresh Kumar, Ashok Kumar, Jagdev Singh, Dinesh Kumar, Shiv Kumar, Raj Kumar S/o Gulab Singh S/o Ramswarup equal six shares 1/3 share Lokram, Deendayal, Hukam Singh S/o Lalchand S/o equal three shares 1/4 share Chetananand, Anil Kumar S/o Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/20 share Ram Avatar S/o Mamchand S/o Dhanna 103/5616 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o Mamchand 103/5616 share Munesh Kumar S/o Bastiram S/o Mamchand 103/5616 share Wasideh
23	45// 20/1 min	Chahi	Private	0.0252	Ramavatar S/o, Mamchand S/o, Dhanna 139/1872, share Mrs. Rajesh, Babli D/o, and Kitaabo, widow, shaadiRam S/o, equal three shares 1/24 share Mrs. Kamlesh D/o and Krishna widow Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/30 share Bastiram S/o Mamchand S/o Dhanna 1837/19760 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o 3041/59280 share Smt Santosh widow Ajit Singh S/o Mamchand 31/1710 share Naresh Kumar, Ashok Kumar, Jagdev Singh, Dinesh Kumar, Shiv Kumar, Raj Kumar S/o



					Gulab Singh S/o Ramswarup equal six shares 1/3 share Lokram, Deendayal, Hukam Singh S/o Lalchand S/o equal three shares 1/4 share Chetananand, Anil Kumar S/o Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/20 share Ram Avatar S/o Mamchand S/o Dhanna 103/5616 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o Mamchand 103/5616 share Munesh Kumar S/o Bastiram S/o Mamchand 103/5616 share Wasideh
24	45// 21/2 min	Chahi	Private	0.0304	Ramavatar S/o, Mamchand S/o, Dhanna 139/1872, share Mrs. Rajesh, Babli D/o, and Kitaabo, widow, shaadiRam S/o, equal three shares 1/24 share Mrs. Kamlesh D/o and Krishna widow Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/30 share Bastiram S/o Mamchand S/o Dhanna 1837/19760 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o 3041/59280 share Smt Santosh widow Ajit Singh S/o Mamchand 31/1710 share Naresh Kumar, Ashok Kumar, Jagdev Singh, Dinesh Kumar, Shiv Kumar, Raj Kumar S/o Gulab Singh S/o Ramswarup equal six shares 1/3 share Lokram, Deendayal, Hukam Singh S/o Lalchand S/o equal three shares 1/4 share Chetananand, Anil Kumar S/o Chetram S/o Lalchand equal two shares 1/20 share Ram Avatar S/o Mamchand S/o Dhanna 103/5616 share Dharmendra Kumar S/o Shaadiram S/o Mamchand 103/5616 share Munesh Kumar S/o Bastiram S/o Mamchand 103/5616 share Wasideh
25	46// 15/2/3 min	Gair Mumkin Rasta	Private and Government	0.0152	Panchayat deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
26	46// 21/2 min	Chahi	Private	0.0101	Ishwar Singh, Atar Singh, Balwan S/o Tularam S/o Inchaaram equal three shares 3/5 share Smt Barfi Devi widow and Subhash Chand, Sri Bhagwan, Govind S/o Dhaniram S/o Tularam equal four shares 1/5 share JaiBhagwan S/o Kawarlal S/o Tularam 4/25 share JaiBhagwan S/o Kawarlal S/o Tularam 1/25 share Wasideh
27	47// 18/1/1 min	Chahi	Private	0.0025	Ramkumar S/o Hariram S/o Dataram wasideh
28	47// 18/2 min	Chahi	Private	0.0025	Mahesh Kumar S/o Hariram S/o Dataram Wasi Saidpur Mohammadpur
29	47// 22/3 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Ishwar Singh, Atar Singh, Balwan S/o and Mrs. Chhota Devi widow Tularam S/o Incharam equal four shares 22/125 shares Mrs. Barfi Devi widow and Subhash Chand, shriBhagwan, Gobind S/o Dhaniram S/o Tularam equal four shares 6/125 share JaiBhagwan S/o Kanwarlal S/o Tularam 24 / 625 share Wasideh Mahesh Kumar S/o Hariram S/o Dataram 23/250 share resident Saidpur Mohammadpur JaiBhagwan S/o Kanwarlal S/o Tularam 6/625 share Khajan Singh, Ramesh Singh S/o Kriparam S/o Sadaram equal two shares 34/125 share Anup Singh S/o Jeetram S/o Dayaram 17/125 share Wasideh Satyanarayana S/o Tekchand S/o Dayaram 17/375 share residents Nitin Yadav, Deepak Yadav, S/oal Yadav S/o Sarupnarayan S/o Tekchand equal three shares 17/750 share Smt Kamala Devi M/o and Mrs. Bimala Devi widow and Nitin Yadav, Deepak Yadav, S/oal Yadav S/o Sarupnarayan S/o Tekchand equal five shares 17/750 share Wasideh Smt Kamala Devi M/o and Smt Kamlesh widow and Praveen Daulatram S/o Jayanarayan S/o Tekchand equal four shares 17/375 share resident Ramkumar S/o Hariram S/o Datram 23/250 share Wasideh
30	47// 23/2/1 min	Chahi	Private	0.0379	Ramkumar S/o Hariram S/o Dataram wasideh

31	47// 23/2/3 min	Gair Mumkin	Private	0.0025	Ishwar Singh, Atar Singh, Balwan S/o and Mrs. Chhota Devi widow Tularam S/o Incharam equal four shares 22/125 shares Mrs. Barfi Devi widow and Subhash Chand, shriBhagwan, Gobind S/o Dhaniram S/o Tularam equal four shares 6/125 share JaiBhagwan S/o Kanwarlal S/o Tularam 24 / 625 share Wasideh Mahesh Kumar S/o Hariram S/o Dataram 23/250 share resident Saidpur Mohammadpur JaiBhagwan S/o Kanwarlal S/o Tularam 6/625 share Khajan Singh, Ramesh Singh S/o Kriparam S/o Sadaram equal two shares 34/125 share Anup Singh S/o Jeetram S/o Dayaram 17/125 share Wasideh Satyanarayana S/o Tekchand S/o Dayaram 17/375 share residents Nitin Yadav, Deepak Yadav, S/oal Yadav S/o Sarupnarayan S/o Tekchand equal three shares 17/750 share Smt Kamala Devi M/o and Mrs. Bimala Devi widow and Nitin Yadav, Deepak Yadav, S/oal Yadav S/o Sarupnarayan S/o Tekchand equal five shares 17/750 share Wasideh Smt Kamala Devi M/o and Smt Kamlesh widow and Praveen Daulatram S/o Jayanarayan S/o Tekchand equal four shares 17/375 share resident Ramkumar S/o Hariram S/o Datram 23/250 share Wasideh
<b>Sub Total</b>				<b>0.5336</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:</b>					<b>Farrukhnagar</b>
<b>Name of Village:</b>					<b>Sultanpur</b>
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7// 11 min	Chahi	Private	0.0025	Krishan S/o Kishanlal S/o Hetram 1/2 share Sunil S/o Rohtash S/o Kishanlal 1/2 share Wasideh
2	7// 20/1 min	Chahi	Private	0.1012	Krishan S/o Kishanlal S/o Hetram 1/2 share Sunil S/o Rohtash S/o Kishanlal 1/2 share Wasideh
3	7// 21/1/2/1 min	Chahi	Private	0.0076	Krishan S/o Kishanlal S/o Hetram 1/2 share Sunil S/o Rohtash S/o Kishanlal 1/2 share Wasideh
4	7// 21/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0304	Krishan S/o Kishanlal S/o Hetram 1/2 share Sunil S/o Rohtash S/o Kishanlal 1/2 share Wasideh
5	7// 21/2/2 min	Chahi	Private	0.0228	Prakash Dei W/o S/o Wasideh hakdar Shamalat Parikshit S/o Jagmal Singh S/o Puran resident
6	8// 15/2/2 min	Chahi	Private	0.0076	Sajay, Sunil S/o Raj Singh S/o Naval Singh equal two shares 1/5 share Malakan kabza Rajiv, Umesh S/o Jayanarayan S/o Naval Singh equal two shares 1/5 share Malakan kabza Vikash, Vikram S/o jeely Singh S/o Naval Singh equal two shares 1/5 share Malkan kabza Ravindra alias Jitendra S/o Hariom S/o Naval Singh equal two shares 1/5 share Malakan kabza Wasideh Sukhbir S/o Naval Singh S/o Ramprasad 1/5 share Malik Kabza resident Kheda Jhajrola Inder Singh etc. residet hakdar shamlaat
7	15// 1/2 min	Chahi	Private	0.0025	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
8	15// 2/2 min	Chahi	Private	0.0253	Ramnivas S/o Umrao S/o Bhagwana 1/6 share Malik Kabza Narayan, Rampal, Ramkishan S/o Sarjeet Singh S/o Umrao equal three shares 1/8 share Malkan kabza Mrs. Krishna, Geeta D/o Sarjeet Singh S/o Umrao equal two shares 1/36 share Malkan kabza Balwan Singh, Sher Singh S/o Maha Singh S/o Hasram equal two shares 1/6 share Malkan kabza Narayan Singh, Rampal, Ramkishan S/o and Mrs. Krishna Devi, Geeta Devi D/o Sarjit Singh S/o equal five shares 1/72 share Malkan kabza Shri Bhagwan

					S/o Ramnath Mishra S/o 1/2 share malik kabza Ramnivas S/o Khushiya S/o 5/12 share Smt. Panna Devi D/o Khushiram S/o 1/12 share Naresh etc. 673 Khevat 1/2 share Wasideh hakdar Shamlat
9	15// 9/1/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0202	Satpal S/o or Smt. Satan, Suman, Kamlesh D/o or Smt. Kashtoori Widdow Pohap Singh S/o Hari Singh Every Five Equal Shares 5/36 Share Wasideh Abhay Singh S/o Jagdish S/o Shreechand 1/4 Share Wasi Foola D/o Hari Singh S/o Bhagvana 1/12 Share Smt. Sarla Devi Widdow or Govind Kumar, Yogesh Kumar S/o Harpal Singh S/o Ratiram Every Three Equal Shares 1/4 Share Smt. Kamlesh Widdow or Pradeep S/o Sh. Chiranjilal S/o Sh. Pohap Singh Every Two Equal Shares 1/36 Share Wasideh Vishnudatt S/o Ramfal S/o Shreechand 1/12 Share Wasi Vishnudatt S/o or Sharda, Suman D/o or Ramrati Widdow Ramfal S/o Shreechand Every Four Equal 1/6 Share Wasi
10	15// 9/2/1 min	Chahi	Private	0.0126	Ramkumar S/o Raghbir Singh S/o Munshiram 1/2 share malik kabza resident Kheda Hajarola Mawasi etc. Hakdar Shamlat Mrs. Geeta W/o and Neeraj Yadav, Dheeraj, Krishan, Suman Devi S/o Balkishan S/o equal five shares 1/2 share Wasideh
11	15// 12/2 min	Chahi	Private	0.0101	Jagdish S/o Shreechand S/o Bhagvan 1/6 Share Malik Kabja Sharda, Suman D/o or Ramrati Widdow Ramfal S/o Shreechand Every Three Equal Shares 5/24 Share Malkan Kabja Pohap Singh S/o Hari Singh S/o Bhagvana 1/6 Share Malik Kabja Abhay Singh S/o Jagdish S/o 1/12 Share Malik Kabja Smt. Sarla Devi Widdow or Govind Kumar, Yogesh Kumar, S/o Harpal Singh S/o Ratiram Every Three Equal Shares 1/4 Share Malkan Kabja Smt. Chavli Etc. Khewat no.1047/1 Hakdar Shamlat Vishnu S/o Ramfal S/o 1/8 Wasideh
12	15// 13/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0253	Abhay Singh S/o Jagdish S/o Srichand 1/4 share resident Bishnu S/o Ramphal S/o Srichand 1/8 share Mrs. Sharda, Suman D/o and Ramrati widow Ramphal S/o Srichand equal three shares 1/8 share Satpal S/o Pohapsingh S/o Harisingh 1/9 share Smt. Kisturi widow Pohap Singh S/o Harisingh 1/36 share Smt. Sarla Devi widow and Govind Kumar, Yogesh Kumar S/o Harpal Singh S/o Ratiram equal three shares 1/4 share Smt Kamlesh widow and Pradeep S/o late Chiranjilal S/o Late Pohp Singh equal two shares 1/9 share Wasideh
13	15// 18/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0456	Abhay Singh S/o Jagdish S/o Srichand 1/4 share resident Bishnu S/o Ramphal S/o Srichand 1/8 share Mrs. Sharda, Suman D/o and Ramrati widow Ramphal S/o Srichand equal three shares 1/8 share Satpal S/o Pohapsingh S/o Harisingh 1/9 share Smt. Kisturi widow Pohap Singh S/o Harisingh 1/36 share Smt. Sarla Devi widow and Govind Kumar, Yogesh Kumar S/o Harpal Singh S/o Ratiram equal three shares 1/4 share Smt Kamlesh widow and Pradeep S/o late Chiranjilal S/o Late Pohp Singh equal two shares 1/9 share Wasideh
14	15// 23/2 min	Chahi	Private	0.0253	Bijender Singh S/o Chandgiram S/o Dharam Singh alias Dharma 1/2 share Malik Kabza Vijay Singh S/o Raj Singh S/o Dharm Singh alias Dharma 1/4 share Malik Kabza Ajay S/o Raj Singh S/o Dharm Singh 1/4 share Malik Kabza Ram Singh S/o Khushiya S/o 5/12 share Mrs. Panna Devi D/o Khushiram S/o 1/12 share Naresh etc. 673 Khevat 1/2 share Wasideh Haqdar Shamlat

15	15// 24/1/1 min	Chahi	Private	0.0152	Bijender Singh S/o Chandgiram S/o Dharam Singh alias Dharma 1/2 share Malik Kabza Vijay Singh S/o Raj Singh S/o Dharm Singh alias Dharma 1/4 share Malik Kabza Ajay S/o Raj Singh S/o Dharm Singh 1/4 share Malik Kabza Ram Singh S/o Khushiya S/o 5/12 share Mrs. Panna Devi D/o Khushiram S/o 1/12 share Naresh etc. 673 Khevat 1/2 share Wasideh Haqdar Shamlat
16	33// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.0101	Bijendar Singh S/o Chandgiram S/o Dharam Singh alias Dharma 1/2 share Vijay Singh S/o Raj Singh S/o Dharam Singh alias Dharma 1/4 share Ajay S/o Raj Singh S/o Dharam Singh 1/4 share Wasideh
17	33// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.0253	Sudhir Kumar S/o Pitambardutt Shastri S/o resident C-block resident Vikaspuri Delhi
18	33// 4/2/2 min	Chahi	Private	0.0051	Himal Gupta S/o Gulshan Gupta S/o resident Vikaspuri, New Delhi
19	33// 7/1 min	Chahi	Private	0.0354	Bhup Singh, Nandlal S/o Kanhaiyalal adopted S/o Bihari equal two shares 2/3 share resident Deepak Kumar, Rohit Kumar S/o Mahabir Singh S/o Kanhaiyalal equal two shares 1/3 share resident
20	33// 14/2 min	Chahi	Private	0.0025	Bhoop Singh, Nandlal S/o Kanaihayalal Dattak S/o Bihari Every Two Equal Shares 2/3 Share Dipak Kumar, Rohit Kumar S/o Mahabir Singh S/o Kanaihayalal Dattak S/o Bihari Every Two Equal Shares 1/3 Share
21	33// 15/2 min	Chahi	Private	0.0329	Bhup Singh, Nandlal S/o Kanhaiyalal adopted S/o Bihari equal two shares 2/3 share resident Deepak Kumar, Rohit Kumar S/o Mahabir Singh S/o Kanhaiyalal equal two shares 1/3 share resident
22	33// 16/1 min	Chahi	Private	0.0405	Om Singh adopted S/o Nanak S/o Gagabaksh 215/1401 share malik kabza Wasideh Malak Kaamal and hakdar Shamlat Satish Kumar S/o Ramchandra 1/3 share malik kabza resident Maneshar Ramnivas, Pohap Singh S/o Harikishan S/o Ratiram equal two shares 1438/4203 share Malkan kabza Amilal, Keharsingh S/o Gagabaksh S/o equal two shares hakdar Shamlat Gobind S/o Atar Singh S/o Hari Kishan 719/4203 share Wasideh
23	33// 25/2 min	Chahi	Private	0.0329	Om Singh adopted S/o Nanak S/o Gagabaksh 215/1401 share malik kabza Wasideh Malak Kaamal and hakdar Shamlat Satish Kumar S/o Ramchandra 1/3 share malik kabza resident Maneshar Ramnivas, Pohap Singh S/o Harikishan S/o Ratiram equal two shares 1438/4203 share Malkan kabza Amilal, Keharsingh S/o Gagabaksh S/o equal two shares hakdar Shamlat Gobind S/o Atar Singh S/o Hari Kishan 719/4203 share Wasideh
24	43// 1/2 min	Chahi	Private	0.0253	Suresh S/o Jagdish S/o 1/14 share resident Ashok S/o and Omvati, Urmila D/o Meda Ram S/o equal three shares 3/7 share resident Abhilash Yadav, Vinit, Aman Yadav S/o and Mrs. Babita widow Jitendra Kumar S/o Om Prakash equal four shares 1/35 share Sunil Yadav, Karan Singh Yadav, Manish Yadav S/o and Monika Yadav D/o and Mrs. Krishna Devi widow Ramesh Kumar S/o Jagdish Narayan equal five shares 1/14 share Wasideh Anguri widow Satyaprakash S/o 1/40 share Anil, Praveen, Naveen, Manoj S/o Satyaprakash S/o equal four shares 33/280 share resident Mahender S/o Om Prakash S/o 4/35 share resident Balwanti widow Prem Prakash S/o 1/32 share resident Virendra, Sanjay, Tulsi S/o Prem Prakash S/o equal three shares 25/224 share resident
25	43// 10/1 min	Chahi	Private	0.0304	Suresh S/o Jagdish S/o 1/14 share resident Ashok S/o and Omvati, Urmila D/o Meda Ram S/o equal three shares 3/7 share resident Abhilash Yadav, Vinit,

					Aman Yadav S/o and Mrs. Babita widow Jitendra Kumar S/o Om Prakash equal four shares 1/35 share Sunil Yadav, Karan Singh Yadav, Manish Yadav S/o and Monika Yadav D/o and Mrs. Krishna Devi widow Ramesh Kumar S/o Jagdish Narayan equal five shares 1/14 share Wasideh Anguri widow Satyaprakash S/o 1/40 share Anil, Praveen, Naveen, Manoj S/o Satyaprakash S/o equal four shares 33/280 share resident Mahender S/o Om Prakash S/o 4/35 share resident Balwanti widow Prem Prakash S/o 1/32 share resident Virendra, Sanjay, Tulsi S/o Prem Prakash S/o equal three shares 25/224 share resident
26	43// 11/2 min	Chahi	Private	0.0304	Suresh S/o Jagdish S/o 1/14 share resident Ashok S/o and Omvati, Urmila D/o Meda Ram S/o equal three shares 3/7 share resident Abhilash Yadav, Vinit, Aman Yadav S/o and Mrs. Babita widow Jitendra Kumar S/o Om Prakash equal four shares 1/35 share Sunil Yadav, Karan Singh Yadav, Manish Yadav S/o and Monika Yadav D/o and Mrs. Krishna Devi widow Ramesh Kumar S/o Jagdish Narayan equal five shares 1/14 share Wasideh Anguri widow Satyaprakash S/o 1/40 share Anil, Praveen, Naveen, Manoj S/o Satyaprakash S/o equal four shares 33/280 share resident Mahender S/o Om Prakash S/o 4/35 share resident Balwanti widow Prem Prakash S/o 1/32 share resident Virendra, Sanjay, Tulsi S/o Prem Prakash S/o equal three shares 25/224 share resident
27	43// 19/1 min	Chahi	Private	0.0202	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
28	43// 20/1 min	Chahi	Private	0.0126	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
29	43// 22/2 min	Chahi	Private	0.0304	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal

					S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
30	65// 2/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0278	Ramesh S/o Harnarayan S/o Badluram 1/6 share Balvan Singh, Satbir Singh S/o Hariram S/o Badluram equal two shares 1/3 share Narendra Singh S/o and Poonam, Anupam, Rupam D/o and Sanno Devi widow Dayanand S/o Harnarayan equal five shares 1/6 share Satbir Singh S/o Raghbir Singh S/o Shrichand 1/6 share Rajdulari widow Bishan Sarup S/o Gyarsi Lal 1/6 share Wasideh
31	65// 9/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0354	Ramesh S/o Harnarayan S/o Badluram 1/6 share Balvan Singh, Satbir Singh S/o Hariram S/o Badluram equal two shares 1/3 share Narendra Singh S/o and Poonam, Anupam, Rupam D/o and Sanno Devi widow Dayanand S/o Harnarayan equal five shares 1/6 share Satbir Singh S/o Raghbir Singh S/o Shrichand 1/6 share Rajdulari widow Bishan Sarup S/o Gyarsi Lal 1/6 share Wasideh
32	65// 12/2 min	Chahi	Private	0.0404	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
33	65// 18/1 min	Chahi	Private	0.0177	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
34	65// 19/1 min	Chahi	Private	0.0202	Vedsingh, Nihalasingh, Indraj S/o Raghbir Singh S/o

					Shyalusingh equal three shares 1/4 share Gordhan Singh, Jai indrasingh, Vinod S/o Napalsingh S/o Raghbir Singh equal three shares 1/16 share Sispal S/o Bhag Singh S/o Shyalusingh 1/27 share wasideh Mrs. Saraswati W/o and Ajeetsingh S/o Shispal S/o Bhag Singh equal two shares 2/27 share resident Mrs. Guddi W/o Surjpal Singh S/o Bhag Singh 1/18 share resident Jaibirsingh, Sukhbir Singh S/o Ompal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/9 share Wasideh Moolchand, Babusingh S/o Chhatarsingh S/o Shyalusingh equal two shares 2/9 share resident Mrs. Ramwati widow and Shivkumar, Virendra S/o Jagdev S/o Nepal equal three shares 1/48 share Wasideh Pradeep Kumar S/o Bhim Singh S/o Chhatrasingh 1/9 share resident Guddi widow and Shivkumar, Rahul S/o and Geeta Devi D/o Suraj Pal Singh S/o equal four shares 1/18 share Resident
35	65// 23/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0354	Rajesh Kumar, Hariprakash S/o Lalchand S/o Bhuru equal two shares Malkan kabza resident Islampur. Sawai Singh S/o Rughnath S/o Wasideh hakdar shamlat
36	76// 3/2/1 min	Chahi	Private	0.0152	Nitesh Bindal S/o Naresh Bindal S/o 1/4 share resident New Delhi Mrs. Shashi Bindal W/o Naresh Bindal S/o 1/4 share resident New Delhi Hitesh Goyal S/o Kailash Goyal S/o 1/2 share resident New Delhi
37	76// 3/2/2 min	Chahi	Private	0.0101	Suresh Chand S/o Srikishan S/o Jiall 561/1709 share Naveen Gupta, Tarun Gupta S/o Suresh Chand S/o Shrikishan equal two shares 574/1709 share Usha Devi W/o Suresh Chand S/o Shrikishan 574/1709 share Wasideh
38	76// 8/2/1 min	Chahi	Private	0.0101	Karan singh S/o Jagram S/o Khushiram resident Kadipur Teh. And district Gurgaon
39	76// 23/2 min	Chahi	Private	0.0253	Ashok Kumar S/o Jagram D/o Khusiram resident Kadipur resident tehsil Gurgaon
40	99// 3/2 min	Chahi	Private	0.0404	Rakesh kumar S/o Dulichand S/o 213/320 share malik kabza Wasideh Mrs. Bedi widow Dulichand S/o 107/320 share malik kabza resident Jhadsa Hukm Singh, Ramchandar, Lachman Singh S/o equal three shares 7/16 share Mrs. Santradevi D/o SumerSingh adopted S/o Rugnath 1/16 share smt. Renidevi widow and Nainpal Singh, Ramkishan S/o and Mrs. Sureshdevi, Bineshdevi, Rameshdevi, Suman Devi, Sarveshdevi D/o Arjan S/o Shiv Singh equal eight shares 1/2 share Wasideh hakdar Shamlat
41	99// 8/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0404	Rakesh Kumar S/o Dulichand S/o Mangeram Malik Kabza Uday Singh etc Khevat no. 172 S/o Wasideh hakdar Shamlat
42	99// 13/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0658	Dinesh S/o Shubharam S/o Shivlal Malik Kabza resident Salajnad Prakash Singh etc. Wasideh Haqdar Shamlat
43	99// 18/1 min	Chahi	Private	0.0126	Sombeer, Ratipal, Mahipal S/o Narayand Singh S/o Every Three Equal Shares Malik Kamil 3/27 Share Mabij 24/27 Share Malkan Kabja Aflatoon Aadi S/o Smt. Kela Khewat no. Wasideh Hakdar Shamlat
44	99// 23/2 min	Magda	Private	0.0202	Sombeer, Ratipal, Mahipal S/o Narayand Singh S/o Every Equal Three Shares Wasi
45	99// 24/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0101	Mahabir S/o Roop Singh Wasideh
46	110// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.1518	Mahabir singh S/o Rup singh S/o Shivnath Singh Wasideh

47	110// 7/2/1 min	Chahi	Private	0.0101	Mahabir singh S/o Rup singh S/o Shivnath Singh Wasideh and Kuldeep, Dharambir S/o Chamelaram equal two shares 2/3 share Suresh Sharma S/o Vedprakash Sharma 1/3 share Wasideh and M/s K.K. apartment Pvt. Ltd. S/o Wasideh
48	128// 20/2 min	Chahi	Private	0.0051	Mrs. Chanderkour D/o Kudia alias Kudaram S/o Nonad Singh Wasideh
49	130// 18 min	Banjar Kadeem	Private	0.0025	Brijanandan Sharma S/o Satyanarayana Wakuta S/o 47/480 part resident Ajmanpur, Vaisali W Mrs. Anita Devi W/o Pooran Singh S/o Parasuram 1/120 part Vasi Baslambi resident farukhnagar Mrs. Geeta W/o shri krishna sainsi S/o harisih 1/120 part Smt. Santra Devi W/o Banwari Lal S/o Prabhudayal 1/120 part Mrs. Bina W/o Mani Kumar S/o 1/240 part Bishamber Dayal Yadav S/o Netrapal Yadav S/o 1/144 part Anuj Kumar S/o mir singh S/o 1/240 part dinesh kumar S/o prince S/o 1/240 part Smt. Laxmi Devi W/o Dugar Mal S/o Manohar Lal Saini 1/96 part Mrs. Aumvati W/o aumprakash sainsi S/o Manohar Lal Saini 1/60 part Mrs. Shanti Devi W/o Brijlal Sharma S/o banshilal 23/2160 part Shyamveer Singh S/o Rajpal Singh S/o Mangal Singh 1/120 part Mrs. Monica Bharadwaj W/o Sushil Sharma S/o 1/120 part Mrs. Saroj Devi W/o Mamraj Saini S/o Manoharlal Saini 59/4320 part Mrs. Anita Devi W/o Narayan Singh S/o Manoharlal Saini 11/1080 part Pramila Devi W/o Amar Singh Saini S/o ram Saini 59/4320 part Mrs. Saroj Devi W/o Babulal Singh S/o Raghbir Singh 1/120 part Mrs. Asha W/o Ajit S/o aumprakash 1/120 part Ravidat, Pradeep Kumar S/o Amar Singh S/o every two divisions 1/120 part Mrs. Rajbala W/o babulal S/o aumprakash 1/120 part pradeep S/o surendra S/o 11/1440 part Mrs. Mamta W/o rajendra S/o Deshraj Saini 7/1440 part Ramesh Kumar S/o maduram S/o lekhrum 1/32 part Mrs. Vandana Singhal W/o Anup Singhal S/o 13/1080 part Mrs. Mamta Rani W/o bhushan kumar S/o 13/1080 part Wasideh Mrs. Sarita W/o Lalit Kumar S/o Badluram 1/144 part Vasi New Delhi Mrs. Krishna W/o abhay singh S/o Zuther 19/1080 part Wasi Kakraula Mrs. Sunita W/o Rajagopal S/o 7/720 part Wasi Bijwasan Resident Delhi Mrs. Sheela Devi W/o Mahesh Rana S/o 1/144 part Wasi Bijwasan Delhi Gorav Kalda S/o Lajpat Rai Kalda S/o 1/120 part Vasi Ramnagar resident Gurgaon Rajesh S/o surendra S/o 1/40 part Wasi Kheda Janjharola Mrs. Sunita Tyagi W/o naresh tyagi S/o Deepchand Tyagi 7/720 part Wasi Daulatabad Mrs. Manbai W/o S/o of Kundamasih 1/60 part Nandlal S/o Kundan Singh S/o Raghbir Singh 5/288 part Mrs. Hasina W/o kabishar S/o Adagpal Singh 1/120 part Mrs. Lata Devi W/o Lal Singh S/o ragbir singh 53/4320 part Mrs. Chandravati W/o Mamchand S/o Ramachandra 1/120 part Mrs. Babita W/o coverpal S/o Rajpal 53/4320 part sunita yadav W/o Pradeep Singh S/o 19/4320 part Sudesh Yadav W/o Jagdeep Singh S/o 19/4320 part jasmine goddess W/o Rameshchand S/o amilal 1/40 part jyoti rathor W/o Ravindra Singh Rathor S/o 1/144 part anjali W/o bijendra kumar S/o 1/120 part Wasideh Mrs. Sunita W/o dharmbir S/o 19/4320 part resident carterpuri Resident of Gurgaon Smt. Laxmi Devi W/o Jogiram S/o of Hari Singh 1/240 part Wasideh Mrs. Papin's W/o Ushil S/o Naval Singh 1/144 part Wasi Hayatpur Vasi Teh.W District Gurgaon Mrs. Kiran Kataria W/o pawan kumar S/o



					1/144 part resident Najafgarh Resident Delhi Mrs. Indu Bala W/o sanjeev kumar S/o 1/216 part resident Najafgarh Resident Delhi-43 Manish Kumar S/o Kamlesh S/o 1/120 part Vasi Keshavnagar resident Tah.Narnaul,Dist.Mah े Mrs. Krishna W/o Nikhilesh Kumar S/o Risal Singh 19/4320 part Vasi J.565 Street no. 16 Vasi Ashok Vihar Gurgaon savita rani W/o Rajendra Kumar Goyal S/o 4/135 part Vasi Omkar Nagar Aye Vasi Trinagar Delhi Mohit Goyal S/o Rajendra Kumar Goyal S/o 23/1080 part Resident Ocar Nagar Aye resident Srinagar Delhi Mrs. Anuradha Thapar W/o Ashwani Kumar Thapar S/o 2/135 part Vasi Tilaknagar Vasi New Delhi Anil Kumar S/o Naval Singh S/o 19/4320 part Vasi New Delhi resident, Mrs. Janak Seth W/o Ravindra Kumar Seth S/o 1/240 part resident ramesh nagar Wasi West Delhi Birendra Singh S/o kundan singh S/o Raghbir Singh 77/4320 part Wasideh kuldeep S/o Suresh Kumar S/o Ramkanwar 1/135 part Resident Ward No.2 resident farukhnagar Harpal's S/o Banwari Putra 59/2160 part (Mrs. Bimla Gupta W/o Harendra Gupta S/o 7/120 part Wasideh Bhavna daughter pradeep kumar S/o Mulchand 1/240 part Wasi Firoz Gandhi Colony Wasi Phase-1 Gurgaon Mrs. Shobha Rani W/o Sarup Singh S/o Mulchand 1/240 part Vasi Madanpuri street no.11 Vasi Gurgaon Mrs. Shashi W/o ram nivas S/o Mamchand 1/60 part Wasideh Mrs. S/oika Sharma W/o bipan sharma S/o 17/1440 part resident M.N.76/11 resident carterpuri Gurgaon Mrs. Krishna Devi W/o aumprakash S/o 1/120 part Vasi Shyam Vihar resident Najafgarh Hari Mohan Luharuka S/o Pashupati Nath Luharuka S/o 67/4320 part Wasi Begusarai resident bihar Mrs. Prem W/o Dulichand S/o Hardwarilal 1/240 part Wasideh Mrs. Anup Devi W/o Heera Singh S/o Maghav Singh 1/240 part Wasi Khedla Vasi Sohna Gurugram jitendra S/o ramkishan S/o 41/1440 part Wasideh Mrs. Barfi W/o Hari Singh S/o 1/180 part Resident M.N.328 resident carterpuri Gurgaon Mrs. Roopa Agarwal W/o Mukesh Kumar Agarwal S/o 17/1080 part resident M.No.606/23 living triangle park gurug Mrs. Anita Devi W/o Jagbir Singh Yadav S/o Dulichand 19/2160 part Wasi Naharpur Sai-7 Vasi Rohini Delhi sudhir S/o Narayanasih S/o Sheonarayan 13/540 part Wasideh Suman W/o omesh yadav S/o Balbir Singh 1/96 part Vasi Kharkhardi Nahar Delhi Rahul S/o subhash S/o shmonath 25/432 part Wasideh Mrs. Kalavati W/o Suresh Kumar S/o Rampal Prajapat 1/144 part Resident Ward No. 12 resident gurugram Mrs. Priya Putri Bhim Singh S/o 1/240 part Vasi Sadhnagar Palam Gaon New Delhi
50	143// 4/2 min	Gair Mumkin Kyari Namak	Private	0.0025	Balkishan, Ramesh S/o and Savatri D/o Nihalchand S/o equal three shares 1/4 share Smt. Kusam widow and Arun S/o and Nisha, Usha, Sandhya D/o Satyadev S/o Nihalchand equal five shares 1/12 share Satish S/o and Nalini D/o Satya D/o Nihalchand equal two shares 1/18 share Kaushalya widow Laxminarayan 1/12 share Mrs. Pratima Sharma widow and Supriti D/o Mr. Sudhir Sharma S/o Satya Sharma equal two shares 1/36 share Wasideh LMJ CONSULTANCY PVT. LTD. Dierector Vivek Mishra 1/2 share resident Janakpuri New Delhi
51	143// 6 min	Gair Mumkin	Private	0.0025	Vijay Jain S/o Mahesh Chand Jain S/o malik kabza resident Jhadsa Inder etc Wasideh Haqdar Shamlat
52	143// 15/1/2 min	Chahi	Private	0.0025	Ramphul S/o Badlusingh S/o Parsa 61/512 share Ramesh S/o Badlusingh S/o Parsa 99/1280 share

					Mrs. Kamla, Rajwati, Jayawati, Roshni D/o Badlusingh S/o Parsa equal four shares 457/3200 share Mrs. Ramwati W/o Jagdev S/o 457/25600 share Parikshit S/o Badlu Singh S/o 5/16 share Surendra, Sundar, Ashok S/o Kalu S/o equal three shares 5/24 share Sangeeta, Sharda D/o and Kailash widow Kalu S/o equal three shares 5/48 share Smt Kamala Devi W/o Pahlad Singh S/o Jisukh 457/25600 share Wasideh
53	143// 15/2/2 min	Gair Mumkin Kyari Namak	Private	0.0025	Ramesh S/o Badlusingh S/o Parsa 1409/6400 share Mrs. Ramwati W/o Jagdev S/o 457/25600 share Wasideh Sharda D/o and Smt. Kailash widow Kalu S/o equal two shares 5/72 share Kamal Singh, Kishan, Harikishan, Mahendra Singh S/o Parikshit Singh S/o Parsa equal four shares 5/16 share Smt. Kamla Devi W/o Pahlad Singh S/o Jisukh 457/25600 share Wasideh Surendra Singh, Ashok Kumar, Sundar Singh S/o Kalu Singh S/o equal three shares 35/144 share resident Smt. Pooja Yadav W/o Jitender Yadav S/o Dharambir 61/512 Resident
54	143// 16/1 min	Chahi	Private	0.0051	Dasrath, Raj Singh, Raglal, Babulal S/o and Bimla widow Ramesh S/o Sardar equal five shares 5/6 share Malakan kabza Deepak, Pravesh S/o and Samwanti widow Krishan S/o equal three shares 1/6 share Malakan kabza Jagjit S/o Rohtash S/o Wasideh hakdar Shamalat
55	191// 9/1 min	Chahi	Government	0.0051	Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
56	191// 12/2 min	Chahi	Private	0.0101	Balwan Singh, Satbir Singh S/o Hariram S/o Badluram equal two shares 1/72 share Wasideh Ramnath S/o Jai Singh S/o Bane Singh 7/2592 share resident Krishna D/o Rupa S/o Lakkhi 7/1152 share Wasideh Gaushala Cantonment 1/8 share resident Gurgaon Mahesh alias mahasingh S/o Chhajjansingh S/o 1/4 share Wasideh Laxman Singh alias Kaptan Singh S/o Tulla S/o Lakkhi 7/2304 share resident Rajendra Singh, Samay Singh S/o and Rajwati, Bimlesh, Kamlesh D/o Ratan Singh S/o Kalia equal five shares 35/10368 share resident Munshi Singh S/o and Mrs. Santosh D/o Durjan Singh S/o equal two shares 7/2592 share Deepak Kumar, Manoj Kumar S/o and Preeti, Manju D/o and Mrs. Omvati widow Chiranji S/o Durjan Singh equal five shares 7/5184 share Wasideh Kaushalya, Saroj D/o and Vijaypal S/o Sumer Singh S/o Kalia equal three shares 7/1728 share resident Surendra Singh, Babu Singh S/o and Mrs. Sunita D/o Arjun Singh S/o Jai Singh equal three shares 7/2304 share Ali Kumar S/o and Mrs. Bimla widow Hardwari S/o equal two shares 7/4608 share resident wasideh Mrs. Shakuntala, Medo D/o Musaddi S/o Bane Singh equal two shares 7/2304 Share resident Kanhaiya S/o and Nirmala Devi widow and Darshana Devi, Jeetbai, Kusham Devi, Sunita Devi, Shashibala D/o Ramautar S/o Tuhia equal seven shares 7/1152 share Adisal S/o and Ramkali D/o Chandar S/o Mohan equal two shares 7/270 share Bijendra Singh, Mahabir Singh, Chiranji S/o and Brahma, Roshni D/o and Mrs. Atro widow Gaj Singh S/o Chandar equal six shares 7/540 share Manbir Singh, Tejbir Singh, Satbir Singh S/o and Antarbai, Maya, Kamla D/o and Mrs. Ashrafi Devi Widow Pitamber Singh S/o Chandar Singh equal seven shares 7/720 share Dhal Singh, Kanchan Singh S/o Rajwati S/o Chhatrapal Singh equal two shares 1/96 share Ved Singh, Nihal Singh, Indraj Singh S/o and Sugna, Ugam, Bimla, Fatto D/o and Sumera widow Radhbir Singh S/o Syalu equal eight

					shares 1/30 share Wasideh Gordhan Singh, Jayinder Singh, Vinod S/o and Pushpa, Saroj, Brijbala D/o and Mrs. Kela Devi widow Nepal Singh S/o Ragbir Singh equal seven shares 1/240 share resident Harpal Singh, Hargyan Singh, Kartar S/o Shrimati Indra Devi D/o Radhbir Singh equal three shares 1/240 share Sispal Singh S/o Bhag Singh S/o shyalu Singh 1/216 share Mrs. Saraswati W/o and Ajit Singh S/o Sispal Singh S/o Bhag Singh equal two shares 1/108 share Wasideh Mrs. Guddi widow and Shiv Kumar, Rahul S/o and Rita D/o Surajpal Singh S/o Bhag Singh equal four shares 1/144 share residents Jaibeer Singh, Sukhbir Singh S/o and Mrs. Savatri widow Ompal Singh S/o equal three shares 1/72 share Smt. Sharbati widow and Moolchand, Babusingh, Bhim Singh S/o and Sumali D/o Chhater Singh S/o equal five shares 1/24 share Om Prakash, Jaivir, Tejpal S/o Shivanarayan S/o equal three shares 7/2592 shares Manoj Kumar, Sudhir Singh S/o and Punam D/o and Mrs. Kanta Devi widow Jagdish Kumar S/o equal four shares 7/4608 share Sunita Devi D/o and Surendra Singh, Babu Singh S/o Smt Pista Devi W/o Arjun Singh equal three shares 7/6912 share Rakesh Singh S/o Lakshman Singh S/o Tularam 7/4608 share Wasideh Pista Devi widow and Surendra, Babusingh S/o and Sunita D/o Arjan Singh S/o Jaisingh equal four shares 7/2592 share resident Vijay Kumar, Ajay Chauhan, Sanjay Singh S/o and Asha Rani D/o Ram Kumar alias Ramkuwar S/o Tularam equal four shares 7/4608 share residents Mohan Singh, Ravindra Singh, Ajit Singh S/o and Mrs. Usha Rani D/o and Mrs. Kiran Devi widow Sundar Singh S/o Ratan Singh equal five shares 7/10368 share Resident Bimla Devi widow and Hemlata, Deeplata D/o and Mukesh Kumar S/o Jagdish S/o Musaddi equal four shares 7/4608 share resident Mrs. Guddi W/o Surajpal S/o Bhag Singh 1/144 share resident Ramesh S/o Harnarayan S/o Bdluram 1/144 share resident Narendra Singh S/o and Poonam, Anupam, Rupam D/o and S/oa Devi widow Dayanand S/o Harnarayan equal five shares 1/144 share resident Narendra Singh S/o Lal Singh S/o Rotan 1/4 share resident
57	191// 23/1/1/2 min	Chahi	Private	0.0178	Munshi Singh alias Suresh S/o Sultan Singh S/o Risal Singh 1/3 share resident Smt. Lakshmi Devi widow Mangeram S/o Sultan 1/21 share Satish, Yogendra S/o Mangeram S/o Sultan equal two shares 1/7 share Wasideh Anil Kumar S/o Mangeram S/o 1/12 share Resident Jogendra S/o Mangeram S/o 5/84 share Ashok Kumar S/o Mahendra Singh S/o Sultan Singh 4/13 share Mrs. Santosh widow Mahendra Singh S/o Sultan Singh 1/39 share Wasideh
58	205// 8/1/2 min	Chahi	Private	0.0025	Mrs. Kalavati widow and Santosh, Premlata, Meera D/o Pyarelal S/o Lekhuram equal four shares living share 4/5 share Mrs. Kalavati M/o and Mrs. Asha widow and Lokesh S/o and Udit, Srishti D/o Jagdish S/o Pyarelal equal five shares living share 1/5 share Wasideh Arun jain S/o Suresh Chand Jain S/o resident 437/14 Urban State Gurgaon Murthan
59	217 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
60	218 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Civil Panchayat Dehand Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
61	232 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0025	Central Government Arazi Matruka Bila Alat Shuda wasideh

62	354 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
63	357 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
64	359 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
65	365 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051	Civil Panchayat Deh
66	366 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
67	423 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
68	449 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0556	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
69	490 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0126	Civil Panchayat Deh and Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
70	492 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0101	Civil Panchayat Deh
<b>Sub Total</b>				<b>1.4491</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar</b>					<b>Farrukhnagar</b>
<b>Name of Village: Jhanjrola</b>					<b>Jhanjrola</b>
Sl. No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares	Name of the Land Owner/ Interested perS/os
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	45// 18/1 min	Chahi	Private	0.0304	Mir Singh, Santlal, Sundar Singh S/o Hari Singh S/o Teku equal three shares 7/16 share Smt. Pavitra widow and Abhishek, Manish Kumar S/o and Mrs. Monika D/o Rampal S/o Hari Singh equal four shares 1/16 share Brahmaprakash S/o Shoram S/o Teku 1/4 share Aman Kumar, Pawan Kumar, Ramesh Kumar S/o and Smt Kamla Devi widow Balwan Singh S/o Shauram equal four shares 1/4 share Wasideh
2	45// 23/2/2 min	Chahi	Private	0.0329	Mir Singh, Santlal, Sundar Singh S/o Hari Singh S/o Teku equal three shares 7/16 share Smt. Pavitra widow and Abhishek, Manish Kumar S/o and Mrs. Monika D/o Rampal S/o Hari Singh equal four shares 1/16 share Brahmaprakash S/o Shoram S/o Teku 1/4 share Aman Kumar, Pawan Kumar, Ramesh Kumar S/o and Smt Kamla Devi widow Balwan Singh S/o Shauram equal four shares 1/4 share Wasideh
3	46// 4/1/2 min	Chahi	Private	0.0000	Sumer Singh S/o Ramjilal S/o Mahiram 11/405 Shares Dalip Singh S/o and Smt. Jaypali, Rajsh Devi D/o Prabhu S/o Chhelu Every Three Equal Shares

					1/15 Share Rajpal, Jamnadas, Jagdev, Ramnath, Satish Kumar S/o Jagram S/o Every Five Equal Shares 1/7 Share Krashancharan, Jagraj S/o Mangal S/o Ramjilal Every Two Equal Shares 2/15 Share Bheem Singh, Vikash Kumar, Abhay Singh S/o and Smt. Saroj Devi, Shila Devi, Suresh Devi D/o Manoharlal S/o Ramji Lal Every Six Equal Shares 2/35 Share Smt. Suman Devi, Aman Devi D/o Smt. Rajkaur S/o Mangal Every Two Equal Shares 1/15 Share Roshanlal S/o Ramjilal S/o Mahiram 1/15 Share Vrikatatk S/o 14/81 Share Wasideh
4	46// 4/2/2 min	Chahi	Private	0.0556	Ramesh Kumar S/o Badlu S/o Kudia 237/874 share Gobind S/o Rampal S/o 82/437 share Mukesh Kumar S/o Badlu Ram S/o 473/2622 share Mrs. Kamla, Bimla, Santosh D/o Bhupsingh S/o Dulichand equal three shares 473/2622 share Mrs. Manoj W/o Mukesh Kumar S/o Badlu 473/2622 share wasideh
5	46// 6/2/1 min	Chahi	Private	0.0354	Dalip Singh S/o Prabhu S/o Chelu 63/589 share Rakesh Kumar S/o Bhayram S/o 55/589 share Chandrabhan, Rajpal, Jagdev, Ramnath, Satish Kumar S/o Jagram equal five shares 70/589 share Sumer Singh S/o Ramjilal S/o Mahiram 14/589 share Sukhram S/o Sumer Singh S/o Ramjilal 104/589 share Om Singh, Rambir S/o Roshan Lal S/o equal two shares 118/589 share Birbal, Giriraj S/o Jamnadas S/o Jagram equal two shares 14/589 share Krishnacharan, Gajraj S/o Mangal S/o Ramjilal equal two shares 118/589 share Bhim Singh, Vikash Kumar, Abhay Singh S/o Manohar Lal S/o Ramji Lal equal three shares 33/589 share Wasideh
6	46// 7/1/1 min	Chahi	Private	0.0051	Dalip Singh S/o Prabhu S/o Chelu 63/589 share Rakesh Kumar S/o Bhayram S/o 55/589 share Chandrabhan, Rajpal, Jagdev, Ramnath, Satish Kumar S/o Jagram equal five shares 70/589 share Sumer Singh S/o Ramjilal S/o Mahiram 14/589 share Sukhram S/o Sumer Singh S/o Ramjilal 104/589 share Om Singh, Rambir S/o Roshan Lal S/o equal two shares 118/589 share Birbal, Giriraj S/o Jamnadas S/o Jagram equal two shares 14/589 share Krishnacharan, Gajraj S/o Mangal S/o Ramjilal equal two shares 118/589 share Bhim Singh, Vikash Kumar, Abhay Singh S/o Manohar Lal S/o Ramji Lal equal three shares 33/589 share Wasideh
7	46// 15/2/2 min	Chahi	Private	0.0253	Ramesh Kumar S/o Badlu S/o Kudia 237/874 share Gobind S/o Rampal S/o 82/437 share Mukesh Kumar S/o Badlu Ram S/o 473/2622 share Mrs. Kamla, Bimla, Santosh D/o Bhupsingh S/o Dulichand equal three shares 473/2622 share Mrs. Manoj W/o Mukesh Kumar S/o Badlu 473/2622 share wasideh
8	47// 20/1 min	Chahi	Private	0.0378	Jagmal S/o Shriram S/o Ramprasad 308/1759 share resident Hansram, Ramphal S/o Buddha S/o Nathwa equal two shares 308/1759 share Wasideh Jagdish Chand, Rakesh Kumar S/o & Mrs. Vidha Devi D/o Bhairam S/o Budha equal three shares 384/8795 share Santram S/o and Mrs. Sarla, Rekha D/o Rajbala S/o Bhayram equal three shares 26/1759 share Manjit S/o and Mrs. Lata D/o Ramakwar S/o Ruda equal two shares 211/1759 share Smt. Anita widow and Sujit Kumar, Kumar Sahab S/o Anil Kumar S/o Ramkwar equal three shares 105 / 1759 share Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Mrs. Bina Yadav widow Harish Kumar S/o Ramkumar equal three shares 211/3518 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs. Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 128/8795 share Mrs. Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares

					128/8795 share Hiralal, Hukam, Nahar Singh, Atar Singh S/o Lekharam S/o equal four shares 1232/8795 share Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 704/26385 share Wasideh Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budhram 77/10554 share resident Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkavar S/o Ruda 211/10554 share Manjit S/o Ramkwar S/o Ruda 211/10554 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 211/10554 share Vasideh Smt Kamla Devi D/o Mukhtiar Singh S/o Budharam equal two shares 77/1759 share resident Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam 77/5277 share resident Smt Anita D/o and Sarli Devi widow Dariyav S/o Lekharam equal two shares 2221/4696530 share Omsingh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav Singh S/o Lekharam equal four shares 7/890 share Mrs. Kamlesh widow and Sandeep S/o and Mrs. Anju D/o Virpal S/o Mukhtiar Singh equal three shares 77/3518 share Wasideh
9	47// 21/2 min	Chahi	Private	0.0152	Jagmal S/o Shriram S/o Ramprasad 308/1759 share resident Hansram, Ramphal S/o Buddha S/o Nathwa equal two shares 308/1759 share Wasideh Jagdish Chand, Rakesh Kumar S/o & Mrs. Vidha Devi D/o Bhairam S/o Budha equal three shares 384/8795 share Santram S/o and Mrs. Sarla, Rekha D/o Rajbala S/o Bhayram equal three shares 26/1759 share Manjit S/o and Mrs. Lata D/o Ramakwar S/o Ruda equal two shares 211/1759 share Smt. Anita widow and Sujit Kumar, Kumar Sahab S/o Anil Kumar S/o Ramkwar equal three shares 105 / 1759 share Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Mrs. Bina Yadav widow Harish Kumar S/o Ramkumar equal three shares 211/3518 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs. Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 128/8795 share Mrs. Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares 128/8795 share Hiralal, Hukam, Nahar Singh, Atar Singh S/o Lekharam S/o equal four shares 1232/8795 share Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 704/26385 share Wasideh Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budhram 77/10554 share resident Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkavar S/o Ruda 211/10554 share Manjit S/o Ramkwar S/o Ruda 211/10554 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 211/10554 share Vasideh Smt Kamla Devi D/o Mukhtiar Singh S/o Budharam equal two shares 77/1759 share resident Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam 77/5277 share resident Smt Anita D/o and Sarli Devi widow Dariyav S/o Lekharam equal two shares 2221/4696530 share Omsingh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav Singh S/o Lekharam equal four shares 7/890 share Mrs. Kamlesh widow and Sandeep S/o and Mrs. Anju D/o Virpal S/o Mukhtiar Singh equal three shares 77/3518 share Wasideh
10	47// 22/1 min	Chahi	Private	0.0101	Jagmal S/o Shriram S/o Ramprasad 308/1759 share resident Hansram, Ramphal S/o Buddha S/o Nathwa equal two shares 308/1759 share Wasideh Jagdish Chand, Rakesh Kumar S/o & Mrs. Vidha Devi D/o Bhairam S/o Budha equal three shares 384/8795 share Santram S/o and Mrs. Sarla, Rekha D/o Rajbala S/o Bhayram equal three shares 26/1759 share Manjit S/o and Mrs. Lata D/o Ramakwar S/o Ruda equal two shares 211/1759 share Smt. Anita widow and Sujit Kumar, Kumar Sahab S/o Anil Kumar S/o

					Ramkwar equal three shares 105 / 1759 share Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Mrs. Bina Yadav widow Harish Kumar S/o Ramkumar equal three shares 211/3518 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs. Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 128/8795 share Mrs. Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares 128/8795 share Hiralal, Hukam, Nahar Singh, Atar Singh S/o Lekharam S/o equal four shares 1232/8795 share Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 704/26385 share Wasideh Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budhram 77/10554 share resident Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkavar S/o Ruda 211/10554 share Manjit S/o Ramkwar S/o Ruda 211/10554 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 211/10554 share Vasideh Smt Kamla Devi D/o Mukhtiar Singh S/o Budharam equal two shares 77/1759 share resident Ram Avatar S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam 77/5277 share resident Smt Anita D/o and Sarli Devi widow Dariyav S/o Lekharam equal two shares 2221/4696530 share Omsingh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav Singh S/o Lekharam equal four shares 7/890 share Mrs. Kamlesh widow and Sandeep S/o and Mrs. Anju D/o Virpal S/o Mukhtiar Singh equal three shares 77/3518 share Wasideh
11	50// 2/2 min	Chahi	Private	0.0456	Mrs. Anita widow and Sarjeet Kumar, Kumar Sahab S/o Anil S/o Ramkwar equal three shares 3/80 share Hansa, Ramphal S/o Budha S/o Nathwa equal two shares 3/16 share Mrs. Kamala, Santosh, Savita D/o and Ramavatar, Beerpal S/o Mukhtayar Singh S/o Budha equal five shares 5/64 share Jagdish Chandra, Rakesh Kumar S/o and Mrs. Vidya D/o Bhayram S/o equal three shares 3/64 share Santram S/o and Mrs. Sarala, Rekha D/o Rajbala D/o Bhayram equal three shares 1/64 share Deepchand S/o Teja S/o 1/4 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs. Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 1/64 share Smt Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares 1/64 shares Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 1/70 share Ram Avatar, Beerpal S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam Every Two Equal Shares 1/164 share Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkwar S/o Ruda 1/80 share Manjeet S/o Ramakwar S/o Ruda 1/80 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 1 / 80 share Wasideh Hiralal, Hukam, Nahar, Atar S/o Lekharam S/o equal four shares 33/560 share resident Jagmal S/o Shriram S/o 3/32 share resident Manjeet S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 3/40 share resident Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Bina Yadav widow Harish S/o Ramkavar equal three shares 3/80 share Manjit S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 9/560 shares resident
12	50// 8/1 min	Chahi	Private	0.0125	Mrs. Anita widow and Sarjeet Kumar, Kumar Sahab S/o Anil S/o Ramkwar equal three shares 3/80 share Hansa, Ramphal S/o Budha S/o Nathwa equal two shares 3/16 share Mrs. Kamala, Santosh, Savita D/o and Ramavatar, Beerpal S/o Mukhtayar Singh S/o Budha equal five shares 5/64 share Jagdish Chandra, Rakesh Kumar S/o and Mrs. Vidya D/o Bhayram S/o equal three shares 3/64 share Santram S/o and Mrs. Sarala, Rekha D/o Rajbala D/o Bhayram equal three shares 1/64 share Deepchand S/o Teja S/o 1/4 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs.

					Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 1/64 share Smt Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares 1/64 shares Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 1/70 share Ram Avatar, Beerpal S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam Every Two Equal Shares 1/164 share Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkwar S/o Ruda 1/80 share Manjeet S/o Ramakwar S/o Ruda 1/80 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 1 / 80 share Wasideh Hiralal, Hukam, Nahar, Atar S/o Lekharam S/o equal four shares 33/560 share resident Jagmal S/o Shriram S/o 3/32 share resident Manjeet S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 3/40 share resident Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Bina Yadav widow Harish S/o Ramkavar equal three shares 3/80 share Manjit S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 9/560 shares resident
13	50// 9/1 min	Chahi	Private	0.0025	Mrs. Anita widow and Sarjeet Kumar, Kumar Sahab S/o Anil S/o Ramkwar equal three shares 3/80 share Hansa, Ramphal S/o Budha S/o Nathwa equal two shares 3/16 share Mrs. Kamala, Santosh, Savita D/o and Ramavatar, Beerpal S/o Mukhtayar Singh S/o Budha equal five shares 5/64 share Jagdish Chandra, Rakesh Kumar S/o and Mrs. Vidya D/o Bhayram S/o equal three shares 3/64 share Santram S/o and Mrs. Sarala, Rekha D/o Rajbala D/o Bhayram equal three shares 1/64 share Deepchand S/o Teja S/o 1/4 share Amit Kumar S/o and Mrs. Priti, Pooja D/o and Mrs. Sunita widow Chand Singh S/o Bhayram equal four shares 1/64 share Smt Santra Devi widow and Suresh Kumar, Dinesh S/o Lakshminarayan S/o Bhayram equal three shares 1/64 shares Om Singh, Surendra, Subhash, Santlal S/o Dariyav S/o Lekhram equal four shares 1/70 share Ram Avatar, Beerpal S/o Mukhtiar Singh S/o Budharam Every Two Equal Shares 1/164 share Sujit Kumar S/o Anil Kumar S/o Ramkwar S/o Ruda 1/80 share Manjeet S/o Ramakwar S/o Ruda 1/80 share Sachin S/o Harish Kumar S/o Ramakwar 1 / 80 share Wasideh Hiralal, Hukam, Nahar, Atar S/o Lekharam S/o equal four shares 33/560 share resident Jagmal S/o Shriram S/o 3/32 share resident Manjeet S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 3/40 share resident Sachin Yadav S/o and Pooja Yadav D/o and Bina Yadav widow Harish S/o Ramkavar equal three shares 3/80 share Manjit S/o and Lata D/o Ramkwar S/o equal two shares 9/560 shares resident
14	50// 13/2 min	Chahi	Private	0.0177	Bheem Singh S/o Patram S/o Khushiram 1/6 share Birendra, Surendra S/o Rupchand S/o Ranjit equal two shares 1/4 share Bir Singh, Krishna Alias Subhash S/o Deepchand S/o Ranjit equal three shares 3/16 share Vasundhara D/o Lal Singh S/o Deepchand 1 / 16 share Naresh Kumar, Mukesh Kumar S/o Rameshver Dayal S/o Patram equal two shares 1/6 share Kirti Kumar Yadav S/o Balwant Singh S/o Patram 1/6 share Wasideh
15	50// 16/2 min	Chahi	Private	0.0051	Bheem Singh S/o Patram S/o Khushiram 1/6 share Birendra, Surendra S/o Rupchand S/o Ranjit equal two shares 1/4 share Bir Singh, Krishna Alias Subhash S/o Deepchand S/o Ranjit equal three shares 3/16 share Vasundhara D/o Lal Singh S/o Deepchand 1 / 16 share Naresh Kumar, Mukesh Kumar S/o Rameshver Dayal S/o Patram equal two shares 1/6 share Kirti Kumar Yadav S/o Balwant Singh S/o Patram 1/6 share Wasideh
16	50// 24/3 min	Chahi	Private	0.0025	Jagmal Singh Dhaniram S/o Mangal Singh S/o Tejram equal two shares 1/10 share Shrikishan S/o Jagmal Singh S/o Mangal Singh 1/80 share Sharmila



					widow and Deepanshu, Dikshant S/o Hansraj S/o Hoshiar equal three shares 1/80 share Anil Kumar, Satish Kumar S/o Dhaniram S/o Mangal Singh equal two shares 1/80 share Ramkaran, Rajpal, Jaswant S/o Ramsarup S/o Bhup Singh equal three shares 5/56 share Nandlal, Rajpal S/o Mukhtiar Singh S/o Puran equal two shares 1/6 share Ramesh, Ravi Yadav S/o Jialal S/o Mukhtiar equal two shares 1/24 share Mangeram S/o Lakhmichand S/o Tejaram 1/4 share Maman Singh S/o Kishanlal S/o Hetaram 13/168 share Ramsarup S/o Bhup Singh S/o Tejaram 527/11364 share Mahendra S/o Ramsarup S/o 35/947 share Hoshiar Singh S/o Mangal Singh S/o Tejaram 1 / 36 share Wasideh Smt Sharmila Devi W/o Hansraj S/o Hoshiar Singh 1/45 share resident Model Economic Township Ltd. 1/3600 share resident 11/600 share resident 11/600 share resident equal four share 23/900 share resident 1/45 share start
<b>Sub Total</b>				<b>0.3337</b>	
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka:</b>				<b>Farrukhnagar</b>	
<b>Name of Village:</b>				<b>Mubarikpur</b>	
<b>Sl. No.</b>	<b>Survey Number Rect. No. / Field No.</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Land Area in Hectares</b>	<b>Name of the Land Owner/ Interested perS/os</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	16// 11/2 min	Chahi	Private	0.0658	Satish S/o Sahiram S/o Premraj 1/4 share Balwan Singh S/o Nimbo Devi D/o Amar Singh 1/10 share Mukhtiar Singh S/o and Mrs. Ramrati, Rajbati, Savita D/o Amikaur D/o Amar Singh equal four shares 1/10 share Anupsingh, Tej Singh S/o Balwanat Singh S/o Amarsingh equal two shares 2/15 share Ashish Kumar S/o Dulichand S/o Premraj 1/4 share Bharpur Singh S/o Nimbo Devi D/o Amar 1/6 Wasideh
2	16// 19/3 min	Chahi	Private	0.0101	Ratiram S/o Savaliya S/o Hardev Rahan Hissa 3/4 Share rameshwar, bhoop Singh, Ramkuvar Singh S/o Jageram S/o Amar Singh Every Three Equal Shares Rahan Hissa 3/16 Share Birmati Widdow or Geeta D/o or Hariprakash S/o Ramkuvar S/o Jageram Every Equal Three Shares Rahan Hissa 1/16 Share Jageram S/o Amar Singh S/o Dhaniram Wasideh Murathan
3	16// 20/1 min	Chahi	Private	0.0329	Satish S/o Sahiram S/o Premraj 1/4 share Balwan Singh S/o Nimbo Devi D/o Amar Singh 1/10 share Mukhtiar Singh S/o and Mrs. Ramrati, Rajbati, Savita D/o Amikaur D/o Amar Singh equal four shares 1/10 share Anupsingh, Tej Singh S/o Balwanat Singh S/o Amarsin Every Two Equal Shares 2/15 Share Ashish Kumar S/o Dulichand S/o Premraj 1/4 Share Bharur Singh S/o Nimbo Devi D/o Amar 1/6 Share Wasideh
4	16// 22/2/1 min	Chahi	Private	0.0101	Ankit Construction Company resident 368 Sec15 Gurugram
5	16// 22/2/2 min	Chahi	Private	0.0202	jagwanti W/o Rajender Singh S/o Dhajjaram resident vill. & Teh. Badli jh.
6	19// 2/2 min	Chahi	Private	0.0683	Surajbhan alias Surjan S/o Bharat Singh S/o Chunnilal resident Islampur
7	19// 9/1 min	Chahi	Private	0.0379	Mangeram S/o Bharat Singh S/o Chunnilal resident Islampur
8	19// 18/1 min	Chahi	Private	0.0430	Dharambir S/o Dayanand S/o Rishal 1/2 share Dayal Singh, Sunil Kumar S/o Jayalal S/o Chatar Singh equal two shares 1/2 Share Wasideh

9	19// 23/2 min	Chahi	Private	0.0151	Dharambir S/o Dayanand S/o Rishal 1/2 share Dayal Singh, Sunil Kumar S/o Jayalal S/o Chatar Singh equal two shares 1/2 Share Wasideh
10	35// 9/1 min	Chahi	Private	0.0051	Satish Kumar, Subhash Chand S/o Diwan S/o Pannalal equal two shares 1/3 share Ramkishan alias braham Prakash alias Pannalal S/o Mohanlal 1/3 share Naresh Kumar, Ravindra Kumar S/o Rishiram S/o Pannalal equal two shares 1/3 share Wasideh
11	35// 12/2 min	Chahi	Private	0.0051	Brahmprakash S/o Shyoram S/o Teku 1/4 share Aman Kumar, Pawan Kumar, Ramesh Kumar S/o and Mrs. Kamla Devi widow Balwan Singh S/o Shyoram equal four shares 1/4 share Mir Singh, Santlal, Surendra S/o Hari Singh S/o Tekchand equal three shares 3 / 8 share Mrs. Pavitra widow and Monika D/o Rampal S/o Hari Singh equal two shares 1/28 share Manish S/o Rampal S/o Hari Singh 1/14 share Abhishek S/o Rampal S/o Hari Singh 1/56 share Wasideh
12	579 min	Gair Mumkin	Private	0.0177	Civil panchayat Deh
<b>Sub Total</b>				<b>0.3313</b>	
<b>Grand Total</b>				<b>11.6552</b>	

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (Cons.)